



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3514]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 3514]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

का.आ. 4327(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के कोटा जिले में NH148N के कि.मी. 346.5 से कि.मी. 450.464 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी दिगोद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के कोटा जिले में NH148N के कि.मी. 346.5 से कि.मी. 450.464 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: कोटा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: दिगोद					
गांव का नाम: बरगू					
1	274/459	सरकारी	माल द्वितीय	0.41(हेक्टेयर)	0.41
2	370	निजी	माल द्वितीय	7.8(हेक्टेयर)	7.8
3	371	निजी	माल द्वितीय	0.24(हेक्टेयर)	0.24
4	372	निजी	गै.मु. रास्ता	6.75(हेक्टेयर)	6.75
5	373	निजी	माल द्वितीय	0.82(हेक्टेयर)	0.82
6	374	निजी	माल द्वितीय	0.3(हेक्टेयर)	0.3
7	81	निजी	माल द्वितीय	1.11(हेक्टेयर)	1.11
8	82	निजी	माल द्वितीय	1.16(हेक्टेयर)	1.16
9	83/471	निजी	माल द्वितीय	1.86(हेक्टेयर)	1.86
10	83/472	निजी	माल द्वितीय	1.86(हेक्टेयर)	1.86
गांव का नाम: भाण्डाहेड़ा					
1	1337/784	निजी	माल प्रथम	3.1(हेक्टेयर)	3.1
2	1338/784	निजी	माल प्रथम	4.51(हेक्टेयर)	4.51
3	1387/229	निजी	माल प्रथम	0.08(हेक्टेयर)	0.08
4	1407/186	निजी	माल प्रथम	1.65(हेक्टेयर)	1.65
5	1432/229	निजी	माल प्रथम	0.22(हेक्टेयर)	0.22
6	1452/804	निजी	माल प्रथम	1.16(हेक्टेयर)	1.16
7	159	निजी	माल प्रथम	5.11(हेक्टेयर)	5.11
8	160	निजी	माल प्रथम	3.53(हेक्टेयर)	3.53
9	161	निजी	माल प्रथम	3.9(हेक्टेयर)	3.9
10	169	निजी	माल प्रथम	4.36(हेक्टेयर)	4.36
11	170	निजी	माल प्रथम	0.04(हेक्टेयर)	0.04
12	171	निजी	माल प्रथम	2.12(हेक्टेयर)	2.12
13	172	निजी	माल प्रथम	7.39(हेक्टेयर)	7.39
14	177	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1.08(हेक्टेयर)	1.08
15	179	सरकारी	माल प्रथम	0.73(हेक्टेयर)	0.73

16	180	निजी	माल प्रथम	0.18(हेक्टेयर)	0.18
17	181	निजी	माल प्रथम	6.7(हेक्टेयर)	6.7
18	182	निजी	माल प्रथम	4.18(हेक्टेयर)	4.18
19	228	निजी	माल प्रथम	4.06(हेक्टेयर)	4.06
20	229	सरकारी	माल प्रथम	0.08(हेक्टेयर)	0.08
21	231	निजी	माल प्रथम	1.78(हेक्टेयर)	1.78
22	234	निजी	माल प्रथम	3.35(हेक्टेयर)	3.35
23	235	निजी	माल प्रथम	1.1(हेक्टेयर)	1.1
24	236	निजी	माल प्रथम	1.13(हेक्टेयर)	1.13
25	237	निजी	माल प्रथम	3.76(हेक्टेयर)	3.76
26	238	निजी	माल प्रथम	2.72(हेक्टेयर)	2.72
27	239	निजी	माल प्रथम	2.02(हेक्टेयर)	2.02
28	251	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1.26(हेक्टेयर)	1.26
29	784	निजी	माल प्रथम	3.1(हेक्टेयर)	3.1
30	785	निजी	माल प्रथम	0.69(हेक्टेयर)	0.69
31	786	निजी	माल प्रथम	1.36(हेक्टेयर)	1.36
32	790	निजी	माल प्रथम	1.75(हेक्टेयर)	1.75
33	791	निजी	माल प्रथम	1.56(हेक्टेयर)	1.56
34	792	निजी	माल प्रथम	4.93(हेक्टेयर)	4.93
35	794	निजी	माल प्रथम	1.24(हेक्टेयर)	1.24
36	795	निजी	माल प्रथम	2.34(हेक्टेयर)	2.34
37	796	निजी	माल प्रथम	7.15(हेक्टेयर)	7.15
38	798	सरकारी	गै.मु. सड़क	1.91(हेक्टेयर)	1.91
39	799/1288	निजी	माल प्रथम	6.77(हेक्टेयर)	6.77
40	800	निजी	माल प्रथम	1.2(हेक्टेयर)	1.2
41	801	निजी	माल प्रथम	1.07(हेक्टेयर)	1.07
42	802	निजी	माल प्रथम	1.07(हेक्टेयर)	1.07
43	803	निजी	माल प्रथम	1.05(हेक्टेयर)	1.05
44	804	निजी	माल प्रथम	1.03(हेक्टेयर)	1.03
45	804/1212	निजी	माल प्रथम	1.16(हेक्टेयर)	1.16
46	808	निजी	माल प्रथम	1.85(हेक्टेयर)	1.85
47	809	निजी	माल प्रथम	1.85(हेक्टेयर)	1.85
48	810	निजी	माल प्रथम	1.07(हेक्टेयर)	1.07

49	810/1303	निजी	माल प्रथम	1.07(हेक्टेयर)	1.07
गांव का नाम: बृजपुरा					
1	134	निजी	बारानी प्रथम	1.85(हेक्टेयर)	1.85
2	180	निजी	माल द्वितीय	0.05(हेक्टेयर)	0.05
3	27	निजी	बारानी द्वितीय	6.49(हेक्टेयर)	6.49
4	28	निजी	बारानी द्वितीय	1.3(हेक्टेयर)	1.3
5	28/305	निजी	बारानी द्वितीय	0.25(हेक्टेयर)	0.25
6	29	निजी	बारानी द्वितीय	2.77(हेक्टेयर)	2.77
7	30	निजी	बारानी द्वितीय	0.08(हेक्टेयर)	0.08
8	31	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.14(हेक्टेयर)	0.14
9	316/42	सरकारी	बारानी तृतीय	0.03(हेक्टेयर)	0.03
10	32	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.66(हेक्टेयर)	0.66
11	323/168	निजी	बारानी प्रथम	1.06(हेक्टेयर)	1.06
12	325/43	निजी	बारानी तृतीय	0.88(हेक्टेयर)	0.88
13	329/143	निजी	बारानी प्रथम	0.64(हेक्टेयर)	0.64
14	33	निजी	बारानी द्वितीय	0.15(हेक्टेयर)	0.15
15	330/286	निजी	बारानी प्रथम	0.73(हेक्टेयर)	0.73
16	331/286	निजी	बारानी प्रथम	0.73(हेक्टेयर)	0.73
17	34	सरकारी	बारानी द्वितीय	0.09(हेक्टेयर)	0.09
18	36	निजी	बारानी द्वितीय	0.43(हेक्टेयर)	0.43
19	38	निजी	बारानी द्वितीय	0.06(हेक्टेयर)	0.06
20	39	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.02(हेक्टेयर)	0.02
21	40	सरकारी	बारानी तृतीय	0.27(हेक्टेयर)	0.27
22	41	सरकारी	बारानी तृतीय	0.87(हेक्टेयर)	0.87
23	42	सरकारी	बारानी तृतीय	0.64(हेक्टेयर)	0.64
24	49	निजी	बारानी तृतीय	0.56(हेक्टेयर)	0.56
25	50	निजी	बारानी द्वितीय	0.28(हेक्टेयर)	0.28
गांव का नाम: देवपुरा					
1	1076/1168	निजी	माल प्रथम	0.19(हेक्टेयर)	0.19
2	1080	निजी	माल प्रथम	4.54(हेक्टेयर)	4.54
3	1082	निजी	माल प्रथम	1.73(हेक्टेयर)	1.73
4	1083	निजी	माल प्रथम	0.57(हेक्टेयर)	0.57
5	1085	निजी	माल प्रथम	1.64(हेक्टेयर)	1.64

6	1085/1215	निजी	माल प्रथम	0.34(हेक्टेयर)	0.34
7	1086	निजी	माल प्रथम	3.83(हेक्टेयर)	3.83
8	1087	निजी	माल प्रथम	3.38(हेक्टेयर)	3.38
9	1088	सरकारी	माल प्रथम	0.23(हेक्टेयर)	0.23
10	121	निजी	गै.मु. नहर	1.13(हेक्टेयर)	1.13
11	127	निजी	माल प्रथम	1.45(हेक्टेयर)	1.45
12	127/1178	निजी	नहरी-1	0.57(हेक्टेयर)	0.57
13	127/1179	सरकारी	नहरी-1	1(हेक्टेयर)	1
14	128	निजी	गै.मु. नहर	1.22(हेक्टेयर)	1.22
15	132	निजी	माल प्रथम	4.31(हेक्टेयर)	4.31
16	133	निजी	माल प्रथम	0.52(हेक्टेयर)	0.52
17	569	निजी	माल द्वितीय	1.42(हेक्टेयर)	1.42

गांव का नाम: झोटेली

1	520	सरकारी	बंजर	3.26(हेक्टेयर)	3.26
2	520/673	निजी	बारानी तृतीय	0.2(हेक्टेयर)	0.2
3	521	सरकारी	बारानी तृतीय	0.14(हेक्टेयर)	0.14
4	522	निजी	बारानी तृतीय	0.63(हेक्टेयर)	0.63
5	523	निजी	बारानी तृतीय	0.43(हेक्टेयर)	0.43
6	524	निजी	नहरी-2	1.96(हेक्टेयर)	1.96
7	551	निजी	नहरी-1	1.75(हेक्टेयर)	1.75
8	553	निजी	नहरी-1	1.01(हेक्टेयर)	1.01
9	554	निजी	नहरी-1	1.46(हेक्टेयर)	1.46
10	555	निजी	नहरी-1	1.8(हेक्टेयर)	1.8
11	587	सरकारी	बारानी तृतीय	0.11(हेक्टेयर)	0.11
12	588	सरकारी	बारानी तृतीय	0.06(हेक्टेयर)	0.06
13	589	सरकारी	बारानी तृतीय	0.05(हेक्टेयर)	0.05
14	590	सरकारी	बारानी तृतीय	0.04(हेक्टेयर)	0.04
15	591	सरकारी	बारानी तृतीय	0.05(हेक्टेयर)	0.05
16	592	सरकारी	बारानी तृतीय	0.11(हेक्टेयर)	0.11
17	593	सरकारी	नहरी-1	0.67(हेक्टेयर)	0.67
18	594/672	निजी	बारानी तृतीय	0.32(हेक्टेयर)	0.32

गांव का नाम: कचौलिया

1	1	सरकारी	गै.मु. सडक	0.63(हेक्टेयर)	0.63
---	---	--------	------------	----------------	------

2	131	सरकारी	गै.मु. नहर	5.57(हेक्टेयर)	5.57
3	135	निजी	नहरी-1	1.84(हेक्टेयर)	1.84
4	135/495	निजी	नहरी-1	0.05(हेक्टेयर)	0.05
5	136	निजी	नहरी-1	0.31(हेक्टेयर)	0.31
6	138	निजी	नहरी-1	1.48(हेक्टेयर)	1.48
7	138/545	निजी	नहरी-1	3(हेक्टेयर)	3
8	153	निजी	नहरी-1	1.27(हेक्टेयर)	1.27
9	155	निजी	नहरी-1	1.66(हेक्टेयर)	1.66
10	155/524	निजी	नहरी-1	0.19(हेक्टेयर)	0.19
11	156	निजी	नहरी-2	3.46(हेक्टेयर)	3.46
12	156/546	निजी	नहरी द्वितीय	2.12(हेक्टेयर)	2.12
13	156/547	निजी	नहरी द्वितीय	1.42(हेक्टेयर)	1.42
14	157	निजी	माल प्रथम	1.32(हेक्टेयर)	1.32
15	157/517	निजी	माल प्रथम	0.15(हेक्टेयर)	0.15
16	157/518	निजी	नहरी-2	0.13(हेक्टेयर)	0.13
17	158	निजी	माल प्रथम	1.37(हेक्टेयर)	1.37
18	159	निजी	नहरी प्रथम	2.16(हेक्टेयर)	2.16
19	214	निजी	नहरी प्रथम	1.45(हेक्टेयर)	1.45
20	215	सरकारी	माल प्रथम	0.57(हेक्टेयर)	0.57
21	216	निजी	नहरी-1	1.03(हेक्टेयर)	1.03
22	219	सरकारी	नहरी-1	0.3(हेक्टेयर)	0.3
23	220	निजी	नहरी-1	7.04(हेक्टेयर)	7.04
24	222	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.65(हेक्टेयर)	0.65
25	224	निजी	नहरी-1	0.57(हेक्टेयर)	0.57
26	225	निजी	नहरी-1	0.22(हेक्टेयर)	0.22
27	226	निजी	नहरी-1	0.13(हेक्टेयर)	0.13
28	227	निजी	नहरी-1	1.84(हेक्टेयर)	1.84
29	239	सरकारी	गै.मु. नहर	4.11(हेक्टेयर)	4.11
30	255	निजी	नहरी-1	0.62(हेक्टेयर)	0.62
31	256	निजी	नहरी-1	0.14(हेक्टेयर)	0.14
32	257	निजी	नहरी-1	0.17(हेक्टेयर)	0.17
33	259	निजी	नहरी-1	0.98(हेक्टेयर)	0.98
34	261	निजी	नहरी-1	0.9(हेक्टेयर)	0.9

35	262	निजी	नहरी-1	1.08(हेक्टेयर)	1.08
36	263	निजी	नहरी-1	1.04(हेक्टेयर)	1.04
37	264	निजी	नहरी-1	2.99(हेक्टेयर)	2.99
38	265	निजी	नहरी-1	2.92(हेक्टेयर)	2.92
39	265/498	निजी	नहरी-1	0.33(हेक्टेयर)	0.33
40	273	निजी	नहरी-1	0.79(हेक्टेयर)	0.79
41	39	सरकारी	गै.मु. नाला	5.22(हेक्टेयर)	5.22
42	4	निजी	नहरी-2	2.63(हेक्टेयर)	2.63
43	40	निजी	नहरी द्वितीय	0.15(हेक्टेयर)	0.15
44	43	सरकारी	गै.मु. नाला	0.43(हेक्टेयर)	0.43
45	5	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.31(हेक्टेयर)	0.31
46	5/506	सरकारी	बारानी द्वितीय	0.08(हेक्टेयर)	0.08
47	52	निजी	नहरी-1	0.87(हेक्टेयर)	0.87
48	53	निजी	नहरी-1	0.9(हेक्टेयर)	0.9
49	54	सरकारी	नहरी-1	0.63(हेक्टेयर)	0.63
50	55	निजी	नहरी-1	0.58(हेक्टेयर)	0.58
गांव का नाम: कल्याणपुरा					
1	100	निजी	नहरी-2	0.17(हेक्टेयर)	0.17
2	101	निजी	नहरी-2	0.07(हेक्टेयर)	0.07
3	102	निजी	नहरी-2	0.07(हेक्टेयर)	0.07
4	103	निजी	नहरी-2	0.11(हेक्टेयर)	0.11
5	104	निजी	नहरी-2	0.05(हेक्टेयर)	0.05
6	105	निजी	नहरी-2	0.22(हेक्टेयर)	0.22
7	106	निजी	नहरी-2	0.13(हेक्टेयर)	0.13
8	107	निजी	नहरी-2	0.12(हेक्टेयर)	0.12
9	108	निजी	नहरी-2	0.03(हेक्टेयर)	0.03
10	109	सरकारी	गै.मु. नाला	0.43(हेक्टेयर)	0.43
11	110	निजी	नहरी-2	0.24(हेक्टेयर)	0.24
12	112	निजी	नहरी-2	1.88(हेक्टेयर)	1.88
13	143	निजी	नहरी-2	1.85(हेक्टेयर)	1.85
14	147	निजी	नहरी-2	0.53(हेक्टेयर)	0.53
15	148	निजी	नहरी-2	0.51(हेक्टेयर)	0.51
16	149	निजी	नहरी-2	0.53(हेक्टेयर)	0.53

17	150	निजी	नहरी-2	0.83(हेक्टेयर)	0.83
18	151	सरकारी	गै.मु. नाला	1.1(हेक्टेयर)	1.1
19	200	निजी	नहरी-1	1.52(हेक्टेयर)	1.52
20	201	निजी	नहरी-1	1.55(हेक्टेयर)	1.55
21	202	सरकारी	गै.मु. नाला	0.96(हेक्टेयर)	0.96
22	203	निजी	नहरी-1	3.19(हेक्टेयर)	3.19
23	36	निजी	बारानी-2	1.87(हेक्टेयर)	1.87
24	37	निजी	बारानी-2	0.89(हेक्टेयर)	0.89
25	40	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.12(हेक्टेयर)	0.12
26	41	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.03(हेक्टेयर)	0.03
27	42	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.2(हेक्टेयर)	0.2
28	43	निजी	माल-2	1.21(हेक्टेयर)	1.21
29	44	निजी	माल-2	0.9(हेक्टेयर)	0.9
30	52	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.06(हेक्टेयर)	0.06
31	53	निजी	बारानी-2	0.47(हेक्टेयर)	0.47
32	54	निजी	बारानी-2	0.78(हेक्टेयर)	0.78
33	55	निजी	माल-1	3.56(हेक्टेयर)	3.56
34	57	निजी	बारानी-2	0.82(हेक्टेयर)	0.82
35	58	निजी	बारानी-2	1.9(हेक्टेयर)	1.9
36	59	निजी	बारानी-2	0.77(हेक्टेयर)	0.77
37	65	निजी	माल-1	4.66(हेक्टेयर)	4.66
38	66	निजी	माल-1	2.45(हेक्टेयर)	2.45
39	67	निजी	माल-1	4(हेक्टेयर)	4
40	671	सरकारी	गै.मु. नहर	6(हेक्टेयर)	6
41	672	निजी	बारानी-1	1.85(हेक्टेयर)	1.85
42	674	निजी	बारानी-1	0.52(हेक्टेयर)	0.52
43	675	निजी	बारानी-1	1(हेक्टेयर)	1
44	676	निजी	माल-2	2.33(हेक्टेयर)	2.33
45	677	निजी	बारानी-1	0.7(हेक्टेयर)	0.7
46	678	निजी	बारानी-1	3.45(हेक्टेयर)	3.45
47	679	निजी	बारानी-1	0.77(हेक्टेयर)	0.77
48	680	सरकारी	गै.मु. नहर	6.79(हेक्टेयर)	6.79
49	698	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.73(हेक्टेयर)	0.73

50	699	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.64(हेक्टेयर)	0.64
51	700	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.07(हेक्टेयर)	0.07
52	701	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.74(हेक्टेयर)	0.74
53	702	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.21(हेक्टेयर)	0.21
54	710	निजी	माल-2	4.96(हेक्टेयर)	4.96
55	711	निजी	बारानी-1	0.39(हेक्टेयर)	0.39
56	712	निजी	बारानी-1	1.27(हेक्टेयर)	1.27
57	713	निजी	बारानी-1	1.05(हेक्टेयर)	1.05
58	714	निजी	बारानी-1	1.3(हेक्टेयर)	1.3
59	715	निजी	बारानी-1	0.61(हेक्टेयर)	0.61
60	716	निजी	बारानी-1	0.62(हेक्टेयर)	0.62
61	717	निजी	बारानी-1	1.02(हेक्टेयर)	1.02
62	721	निजी	माल-2	2.23(हेक्टेयर)	2.23
63	734	निजी	माल-1	3.73(हेक्टेयर)	3.73
64	735	निजी	माल-1	2.97(हेक्टेयर)	2.97
65	736	निजी	माल-1	1.9(हेक्टेयर)	1.9
66	738	निजी	माल-1	6.41(हेक्टेयर)	6.41
67	74	निजी	माल-1	6.7(हेक्टेयर)	6.7
68	75	निजी	माल-1	3.55(हेक्टेयर)	3.55
69	76	निजी	माल-1	1.75(हेक्टेयर)	1.75
70	80	निजी	माल-1	2.47(हेक्टेयर)	2.47
71	81	निजी	माल-1	2.16(हेक्टेयर)	2.16
72	82	निजी	माल-1	1.42(हेक्टेयर)	1.42
73	83	निजी	माल-1	2.56(हेक्टेयर)	2.56
74	84	निजी	माल-1	2.95(हेक्टेयर)	2.95
75	91	निजी	माल-1	4.8(हेक्टेयर)	4.8
76	92	निजी	माल-1	0.42(हेक्टेयर)	0.42
77	93	निजी	माल-1	1.3(हेक्टेयर)	1.3
78	94	निजी	माल-1	0.87(हेक्टेयर)	0.87
79	95	निजी	माल-1	0.95(हेक्टेयर)	0.95
80	96	सरकारी	गै.मु. नहर	6.49(हेक्टेयर)	6.49
81	97	निजी	नहरी-2	0.75(हेक्टेयर)	0.75
82	98	निजी	नहरी-2	0.03(हेक्टेयर)	0.03

83	99	निजी	नहरी-2	0.1(हेक्टेयर)	0.1
गांव का नाम: कंवरपुरा					
1	104	सरकारी	गै.मु. नाला	1.33(हेक्टेयर)	1.33
2	105	निजी	नहरी द्वितीय	1.42(हेक्टेयर)	1.42
3	105/638	निजी	गै.मु. चाह	0.01(हेक्टेयर)	0.01
4	106	निजी	नहरी द्वितीय	1.29(हेक्टेयर)	1.29
5	108	निजी	नहरी द्वितीय	1.64(हेक्टेयर)	1.64
6	109	निजी	नहरी द्वितीय	0.61(हेक्टेयर)	0.61
7	126	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	2.02(हेक्टेयर)	2.02
8	226	निजी	नहरी प्रथम	2.39(हेक्टेयर)	2.39
9	227	निजी	नहरी प्रथम	1.76(हेक्टेयर)	1.76
10	228	निजी	नहरी प्रथम	2.45(हेक्टेयर)	2.45
11	229	निजी	नहरी प्रथम	0.83(हेक्टेयर)	0.83
12	230	निजी	नहरी प्रथम	0.8(हेक्टेयर)	0.8
13	231	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	2.03(हेक्टेयर)	2.03
14	236	निजी	नहरी प्रथम	0.44(हेक्टेयर)	0.44
15	237	निजी	नहरी प्रथम	1.18(हेक्टेयर)	1.18
16	238	निजी	नहरी प्रथम	0.32(हेक्टेयर)	0.32
17	239	निजी	नहरी प्रथम	1.57(हेक्टेयर)	1.57
18	240	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.26(हेक्टेयर)	0.26
19	241	निजी	नहरी प्रथम	0.89(हेक्टेयर)	0.89
20	242	निजी	नहरी प्रथम	0.12(हेक्टेयर)	0.12
21	243	निजी	नहरी प्रथम	0.18(हेक्टेयर)	0.18
22	244	निजी	नहरी प्रथम	1(हेक्टेयर)	1
23	247	निजी	नहरी प्रथम	0.7(हेक्टेयर)	0.7
24	259	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	1.98(हेक्टेयर)	1.98
25	269	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.1(हेक्टेयर)	0.1
26	270	सरकारी	गै.मु. नाला	0.08(हेक्टेयर)	0.08
27	271	निजी	नहरी प्रथम	0.55(हेक्टेयर)	0.55
28	272	निजी	नहरी प्रथम	0.32(हेक्टेयर)	0.32
29	273	निजी	नहरी प्रथम	0.26(हेक्टेयर)	0.26
30	375	सरकारी	गै.मु. नहर	3.95(हेक्टेयर)	3.95
31	382	निजी	नहरी प्रथम	1.72(हेक्टेयर)	1.72

32	383	निजी	नहरी प्रथम	1.89(हेक्टेयर)	1.89
33	384	निजी	नहरी प्रथम	0.53(हेक्टेयर)	0.53
34	385	निजी	नहरी प्रथम	0.41(हेक्टेयर)	0.41
35	386	निजी	नहरी प्रथम	0.81(हेक्टेयर)	0.81
36	387	निजी	नहरी प्रथम	0.45(हेक्टेयर)	0.45
37	389	निजी	नहरी प्रथम	0.46(हेक्टेयर)	0.46
38	390	निजी	नहरी प्रथम	1.15(हेक्टेयर)	1.15
39	402	निजी	नहरी-1	0.86(हेक्टेयर)	0.86
40	409	निजी	नहरी-1	1.19(हेक्टेयर)	1.19
41	410	निजी	नहरी प्रथम	1.06(हेक्टेयर)	1.06
42	411	निजी	गै.मु. नाला	0.78(हेक्टेयर)	0.78
43	413	निजी	नहरी-1	1.75(हेक्टेयर)	1.75
44	414	निजी	नहरी-1	0.96(हेक्टेयर)	0.96
45	414/630	निजी	नहरी-1	0.49(हेक्टेयर)	0.49
46	415	निजी	नहरी-1	0.7(हेक्टेयर)	0.7
47	416	निजी	नहरी-1	0.91(हेक्टेयर)	0.91
48	417	निजी	नहरी-1	1.5(हेक्टेयर)	1.5
49	418	निजी	नहरी प्रथम	0.75(हेक्टेयर)	0.75
50	419	सरकारी	नहरी प्रथम	0.18(हेक्टेयर)	0.18
51	420	निजी	नहरी प्रथम	0.75(हेक्टेयर)	0.75
52	429	सरकारी	गै.मु. नाला	2.55(हेक्टेयर)	2.55
53	444	सरकारी	गै.मु. नाला	1.7(हेक्टेयर)	1.7
54	453	सरकारी	गै.मु. नहर	2.94(हेक्टेयर)	2.94
55	454	निजी	माल-1	0.84(हेक्टेयर)	0.84
56	456	निजी	माल-1	2.36(हेक्टेयर)	2.36
57	457	निजी	नहरी-1	2.05(हेक्टेयर)	2.05
58	458	निजी	नहरी-1	0.51(हेक्टेयर)	0.51
59	459	निजी	नहरी-1	0.38(हेक्टेयर)	0.38
60	460	निजी	नहरी-1	0.04(हेक्टेयर)	0.04
61	461	निजी	नहरी-1	1.81(हेक्टेयर)	1.81
62	470	निजी	गै.मु. ड्रेन	1.9(हेक्टेयर)	1.9
63	478	निजी	नहरी-1	2.6(हेक्टेयर)	2.6
64	479	निजी	नहरी-1	1.61(हेक्टेयर)	1.61

65	480	निजी	नहरी-1	0.78(हेक्टेयर)	0.78
66	480/639	सरकारी	नहरी-1	0.26(हेक्टेयर)	0.26
67	499	निजी	गै.मु. ड्रेन	2.67(हेक्टेयर)	2.67
68	508	निजी	नहरी-1	0.89(हेक्टेयर)	0.89
69	509	निजी	नहरी-1	0.89(हेक्टेयर)	0.89
70	510	निजी	नहरी-1	0.93(हेक्टेयर)	0.93
71	520	निजी	नहरी-1	0.73(हेक्टेयर)	0.73
72	521	निजी	नहरी-1	1.7(हेक्टेयर)	1.7
73	522	निजी	नहरी-1	0.55(हेक्टेयर)	0.55
74	523	निजी	नहरी-1	0.49(हेक्टेयर)	0.49
75	524	सरकारी	नहरी-1	0.01(हेक्टेयर)	0.01
76	525	सरकारी	गै.मु. नाला	0.72(हेक्टेयर)	0.72
77	526	निजी	नहरी-1	3.47(हेक्टेयर)	3.47
78	527	निजी	नहरी-1	0.54(हेक्टेयर)	0.54
79	528	निजी	नहरी-1	1.28(हेक्टेयर)	1.28
80	534	सरकारी	गै.मु. नाला	1.71(हेक्टेयर)	1.71
81	545	निजी	नहरी-1	2.6(हेक्टेयर)	2.6
82	546	निजी	नहरी-1	0.72(हेक्टेयर)	0.72
83	552	सरकारी	गै.मु. नाला	1.1(हेक्टेयर)	1.1
84	555	निजी	नहरी-1	1.38(हेक्टेयर)	1.38
85	556	निजी	नहरी-1	1.47(हेक्टेयर)	1.47
86	557	निजी	नहरी-1	0.62(हेक्टेयर)	0.62
87	558	निजी	नहरी-1	0.81(हेक्टेयर)	0.81
88	559	निजी	नहरी-1	0.8(हेक्टेयर)	0.8
89	565	सरकारी	गै.मु. नहर	1.6(हेक्टेयर)	1.6
90	567	निजी	नहरी-1	1.38(हेक्टेयर)	1.38
91	568	निजी	नहरी-1	0.73(हेक्टेयर)	0.73
92	571	निजी	नहरी-1	0.05(हेक्टेयर)	0.05
93	572	सरकारी	नहरी-1	0.3(हेक्टेयर)	0.3
94	573	निजी	नहरी-1	1.08(हेक्टेयर)	1.08
95	574	सरकारी	नहरी-1	0.86(हेक्टेयर)	0.86
96	58/632	सरकारी	माल प्रथम	0.3(हेक्टेयर)	0.3
97	67	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	0.26(हेक्टेयर)	0.26

98	69	निजी	नहरी द्वितीय	2.75(हेक्टेयर)	2.75
99	70	निजी	नहरी द्वितीय	0.61(हेक्टेयर)	0.61
100	89	निजी	गै.मु. ड्रेन	3.99(हेक्टेयर)	3.99
101	90	निजी	नहरी द्वितीय	0.07(हेक्टेयर)	0.07
102	91	निजी	नहरी द्वितीय	0.21(हेक्टेयर)	0.21
103	92	निजी	नहरी द्वितीय	0.18(हेक्टेयर)	0.18
104	93	निजी	नहरी द्वितीय	0.43(हेक्टेयर)	0.43
105	94	निजी	नहरी द्वितीय	1.5(हेक्टेयर)	1.5
106	95	सरकारी	गै.मु. नाला	0.31(हेक्टेयर)	0.31
107	96	सरकारी	नहरी द्वितीय	0.35(हेक्टेयर)	0.35
108	97	निजी	नहरी द्वितीय	0.54(हेक्टेयर)	0.54
109	98	निजी	नहरी द्वितीय	1.04(हेक्टेयर)	1.04
110	99	सरकारी	गै.मु. नाला	0.14(हेक्टेयर)	0.14
गांव का नाम: कराडिया					
1	12	निजी	बारानी सोयम	0.57(हेक्टेयर)	0.57
2	13	निजी	बारानी सोयम	0.63(हेक्टेयर)	0.63
3	14	निजी	बारानी सोयम	5.32(हेक्टेयर)	5.32
4	143	सरकारी	गै.मु. सड़क	1.56(हेक्टेयर)	1.56
5	144	सरकारी	गै.मु. सड़क	1.84(हेक्टेयर)	1.84
6	145	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.48(हेक्टेयर)	0.48
7	157	निजी	बारानी सोयम	0.04(हेक्टेयर)	0.04
8	170	निजी	गै.मु. चाह	0.05(हेक्टेयर)	0.05
9	171	निजी	बारानी सोयम	6.9(हेक्टेयर)	6.9
10	171/601	निजी	बारानी सोयम	0.1(हेक्टेयर)	0.1
11	171/609	निजी	बारानी सोयम	0.4(हेक्टेयर)	0.4
12	171/625	निजी	बारानी सोयम	0.1(हेक्टेयर)	0.1
13	172/1	निजी	बारानी सोयम	0.38(हेक्टेयर)	0.38
14	172/2	निजी	बारानी सोयम	0.37(हेक्टेयर)	0.37
15	173	निजी	बारानी सोयम	0.39(हेक्टेयर)	0.39
16	174	निजी	बारानी सोयम	0.02(हेक्टेयर)	0.02
17	175	निजी	बंजर	0.05(हेक्टेयर)	0.05
18	176	निजी	बारानी तृतीय	0.66(हेक्टेयर)	0.66
19	177	निजी	बारानी सोयम	0.07(हेक्टेयर)	0.07

20	178	निजी	बारानी सोयम	0.66(हेक्टेयर)	0.66
21	179	निजी	बारानी सोयम	0.17(हेक्टेयर)	0.17
22	179/583	सरकारी	बारानी सोयम	0.1(हेक्टेयर)	0.1
23	180	निजी	बारानी सोयम	0.5(हेक्टेयर)	0.5
24	181	निजी	बारानी सोयम	1.03(हेक्टेयर)	1.03
25	181/1	निजी	बारानी सोयम	0.93(हेक्टेयर)	0.93
26	182	सरकारी	गै.मु. नाली	0.66(हेक्टेयर)	0.66
27	183	निजी	बारानी सोयम	0.1(हेक्टेयर)	0.1
28	184	निजी	बारानी सोयम	0.58(हेक्टेयर)	0.58
29	185	निजी	बारानी सोयम	3.3(हेक्टेयर)	3.3
30	186	निजी	बारानी सोयम	1.56(हेक्टेयर)	1.56
31	186/598	निजी	बारानी सोयम	0.32(हेक्टेयर)	0.32
32	187	निजी	बारानी सोयम	0.08(हेक्टेयर)	0.08
33	188	निजी	बारानी सोयम	0.22(हेक्टेयर)	0.22
34	189	निजी	बारानी सोयम	1.5(हेक्टेयर)	1.5
35	19	निजी	बारानी सोयम	1.11(हेक्टेयर)	1.11
36	190	निजी	बारानी सोयम	2.05(हेक्टेयर)	2.05
37	191	निजी	बारानी सोयम	0.87(हेक्टेयर)	0.87
38	192	निजी	बारानी सोयम	0.33(हेक्टेयर)	0.33
39	193	निजी	बारानी सोयम	1.89(हेक्टेयर)	1.89
40	193/573	निजी	बारानी सोयम	0.04(हेक्टेयर)	0.04
41	197	निजी	बारानी सोयम	1.46(हेक्टेयर)	1.46
42	197/1	निजी	बारानी सोयम	1.46(हेक्टेयर)	1.46
43	197/2	निजी	बारानी सोयम	1.46(हेक्टेयर)	1.46
44	20	निजी	बारानी सोयम	0.71(हेक्टेयर)	0.71
45	21	निजी	बारानी सोयम	1.31(हेक्टेयर)	1.31
46	22	निजी	बारानी सोयम	0.18(हेक्टेयर)	0.18
47	23	निजी	बारानी सोयम	0.11(हेक्टेयर)	0.11
48	24	निजी	बारानी सोयम	1.42(हेक्टेयर)	1.42
49	25	निजी	बारानी सोयम	0.06(हेक्टेयर)	0.06
50	25/582	सरकारी	बारानी-2	0.24(हेक्टेयर)	0.24
51	26	निजी	बारानी सोयम	0.19(हेक्टेयर)	0.19
52	27	निजी	बारानी सोयम	0.08(हेक्टेयर)	0.08

53	28	निजी	बारानी सोयम	1.94(हेक्टेयर)	1.94
54	30	निजी	बारानी सोयम	0.68(हेक्टेयर)	0.68
55	31	निजी	बारानी सोयम	2.95(हेक्टेयर)	2.95
56	31/597	निजी	बारानी सोयम	0.25(हेक्टेयर)	0.25
57	320	निजी	बारानी सोयम	0.02(हेक्टेयर)	0.02
58	36	निजी	बारानी सोयम	0.94(हेक्टेयर)	0.94
59	44	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1.08(हेक्टेयर)	1.08
60	48	सरकारी	गै.मु. शमशान	0.1(हेक्टेयर)	0.1
61	49	सरकारी	गै.मु. तलाई	1.36(हेक्टेयर)	1.36
62	50	निजी	बारानी सोयम	0.6(हेक्टेयर)	0.6
63	51	निजी	बारानी सोयम	2.08(हेक्टेयर)	2.08
64	52	निजी	बारानी सोयम	0.47(हेक्टेयर)	0.47
65	53	निजी	बारानी सोयम	4.01(हेक्टेयर)	4.01
66	54	निजी	बारानी सोयम	0.92(हेक्टेयर)	0.92
67	55	निजी	बारानी सोयम	0.93(हेक्टेयर)	0.93
68	61	निजी	बारानी सोयम	2.74(हेक्टेयर)	2.74
69	63	निजी	बारानी सोयम	2.41(हेक्टेयर)	2.41
70	631/65	निजी	बारानी तृतीय	0.11(हेक्टेयर)	0.11
71	635/181	निजी	गै.मु. चाह	0.25(हेक्टेयर)	0.25
72	635/67	निजी	बारानी-3	2.19(हेक्टेयर)	2.19
73	636/72	निजी	बारानी-3	0.78(हेक्टेयर)	0.78
74	639/176	निजी	बारानी-3	0.81(हेक्टेयर)	0.81
75	64	निजी	बारानी सोयम	3.36(हेक्टेयर)	3.36
76	65	निजी	बारानी सोयम	0.54(हेक्टेयर)	0.54
77	65/1	निजी	बारानी सोयम	0.61(हेक्टेयर)	0.61
78	65/2	निजी	बारानी सोयम	0.44(हेक्टेयर)	0.44
79	65/3	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.04(हेक्टेयर)	0.04
80	65/4	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.04(हेक्टेयर)	0.04
81	65/5	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.03(हेक्टेयर)	0.03
82	652/181	निजी	बारानी सोयम	0.06(हेक्टेयर)	0.06
83	654/65	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.04(हेक्टेयर)	0.04
84	655/65	निजी	उद्योगिक	0.33(हेक्टेयर)	0.33
85	66	निजी	बारानी सोयम	1.92(हेक्टेयर)	1.92

86	663/67	निजी	गै.मु. आबादी	0.25(हेक्टेयर)	0.25
87	665/54	निजी	बारानी सोयम	1.68(हेक्टेयर)	1.68
88	666/54	निजी	बारानी सोयम	1.68(हेक्टेयर)	1.68
89	67	निजी	बारानी सोयम	1.93(हेक्टेयर)	1.93
90	68	निजी	बारानी सोयम	0.38(हेक्टेयर)	0.38
91	69	निजी	बारानी सोयम	0.49(हेक्टेयर)	0.49
92	70	निजी	बारानी सोयम	1.04(हेक्टेयर)	1.04
93	71	निजी	बारानी सोयम	0.84(हेक्टेयर)	0.84
94	72	निजी	गै.मु. आबादी/बारानी तृतीय	0.77(हेक्टेयर)	0.77
95	73	निजी	बारानी सोयम	0.09(हेक्टेयर)	0.09
96	74	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.67(हेक्टेयर)	0.67
गांव का नाम: खेडलीखुशक					
1	1	सरकारी	गै.मु. नदी	7.57(हेक्टेयर)	7.57
2	10	निजी	बारानी तृतीय	0.99(हेक्टेयर)	0.99
3	11	निजी	बारानी तृतीय	0.74(हेक्टेयर)	0.74
4	12	निजी	बारानी तृतीय	0.75(हेक्टेयर)	0.75
5	13	निजी	बारानी तृतीय	0.43(हेक्टेयर)	0.43
6	16	निजी	बारानी-1	1.43(हेक्टेयर)	1.43
7	17	निजी	बारानी-1	1.02(हेक्टेयर)	1.02
8	18	सरकारी	गै.मु. नाला	0.41(हेक्टेयर)	0.41
9	181	सरकारी	गै.मु. नाला	1.63(हेक्टेयर)	1.63
10	2	निजी	तीर	1.04(हेक्टेयर)	1.04
11	28	निजी	बारानी-2	1.03(हेक्टेयर)	1.03
12	29	निजी	बारानी-3	0.53(हेक्टेयर)	0.53
13	3	सरकारी	गै.मु. नाला	0.2(हेक्टेयर)	0.2
14	30	सरकारी	गै.मु. नाला	1.97(हेक्टेयर)	1.97
15	31	निजी	बारानी-3	2.06(हेक्टेयर)	2.06
16	32	निजी	बारानी-2	1.52(हेक्टेयर)	1.52
17	4	निजी	बारानी-1	1.67(हेक्टेयर)	1.67
18	5	निजी	बारानी-1	0.65(हेक्टेयर)	0.65
19	6	निजी	बारानी-1	0.93(हेक्टेयर)	0.93
20	7	निजी	बारानी-1	1.19(हेक्टेयर)	1.19
21	8	निजी	बारानी-1	0.38(हेक्टेयर)	0.38

22	9	निजी	बारानी-2	0.01(हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: कुनेठिया					
1	345	निजी	बारानी तृतीय	1.78(हेक्टेयर)	1.78
2	346	निजी	बारानी तृतीय	1.63(हेक्टेयर)	1.63
3	347	निजी	बारानी तृतीय	1.5(हेक्टेयर)	1.5
4	348	निजी	बारानी तृतीय	0.23(हेक्टेयर)	0.23
5	349	निजी	बारानी तृतीय	0.96(हेक्टेयर)	0.96
6	351	सरकारी	बारानी तृतीय	1.26(हेक्टेयर)	1.26
7	352	निजी	बारानी तृतीय	0.65(हेक्टेयर)	0.65
8	353	निजी	बारानी तृतीय	1.01(हेक्टेयर)	1.01
9	355	निजी	बारानी तृतीय	1.5(हेक्टेयर)	1.5
10	356	निजी	बारानी तृतीय	0.69(हेक्टेयर)	0.69
11	357	निजी	बारानी तृतीय	1.99(हेक्टेयर)	1.99
12	358	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.97(हेक्टेयर)	0.97
13	360	सरकारी	बंजर	0.37(हेक्टेयर)	0.37
14	361	सरकारी	बंजर	0.38(हेक्टेयर)	0.38
गांव का नाम: लाखसनीजा					
1	100	सरकारी	बारानी-3	0.3(हेक्टेयर)	0.3
2	101	सरकारी	बंजर	0.9(हेक्टेयर)	0.9
3	106	सरकारी	गै.मु. बेहड़	1.85(हेक्टेयर)	1.85
4	107	निजी	बारानी-3	0.45(हेक्टेयर)	0.45
5	108	निजी	बारानी-3	1.85(हेक्टेयर)	1.85
6	110	सरकारी	गै.मु. बेहड़	4.02(हेक्टेयर)	4.02
7	118	सरकारी	गै.मु. बेहड़	3.75(हेक्टेयर)	3.75
8	156/664	निजी	बारानी-3	0.3(हेक्टेयर)	0.3
9	162	सरकारी	गै.मु. नाला	1.45(हेक्टेयर)	1.45
10	163	निजी	बारानी-2	1.22(हेक्टेयर)	1.22
11	164	निजी	बारानी-3	0.06(हेक्टेयर)	0.06
12	165	निजी	बारानी-3	1.25(हेक्टेयर)	1.25
13	166	निजी	बारानी-3	1.57(हेक्टेयर)	1.57
14	167	सरकारी	बारानी-3	0.09(हेक्टेयर)	0.09
15	168	निजी	बारानी-3	0.85(हेक्टेयर)	0.85
16	168/627	सरकारी	बारानी-3	0.2(हेक्टेयर)	0.2

17	169	सरकारी	बारानी-3	0.33(हेक्टेयर)	0.33
18	170	निजी	बारानी-3	2.07(हेक्टेयर)	2.07
19	171	सरकारी	गै.मु. नाला	0.36(हेक्टेयर)	0.36
20	172	निजी	बारानी-3	0.3(हेक्टेयर)	0.3
21	173	निजी	बारानी-3	0.72(हेक्टेयर)	0.72
22	175	निजी	बारानी-3	0.19(हेक्टेयर)	0.19
23	176	सरकारी	गै.मु. बेहड़	18.09(हेक्टेयर)	18.09
24	177	निजी	बारानी-3	3.84(हेक्टेयर)	3.84
25	178	निजी	बारानी-3	3.13(हेक्टेयर)	3.13
26	179	निजी	नहरी-2	0.07(हेक्टेयर)	0.07
27	180	निजी	नहरी-1	1.25(हेक्टेयर)	1.25
28	182	सरकारी	नहरी-1	2.62(हेक्टेयर)	2.62
29	183	निजी	नहरी-2	1.54(हेक्टेयर)	1.54
30	184	निजी	नहरी-1	0.87(हेक्टेयर)	0.87
31	185	सरकारी	बारानी-3	3.98(हेक्टेयर)	3.98
32	186	निजी	बारानी-3	1.2(हेक्टेयर)	1.2
33	186/616	सरकारी	बंजर	0.45(हेक्टेयर)	0.45
34	187	सरकारी	बंजर	0.07(हेक्टेयर)	0.07
35	188	निजी	बारानी-3	0.47(हेक्टेयर)	0.47
36	189	सरकारी	बारानी-3	3.16(हेक्टेयर)	3.16
37	193	निजी	नहरी-1	0.74(हेक्टेयर)	0.74
38	194	निजी	नहरी-1	1.05(हेक्टेयर)	1.05
39	52	सरकारी	गै.मु. खाल	1.06(हेक्टेयर)	1.06
40	53	निजी	बारानी-3	0.27(हेक्टेयर)	0.27
41	54	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1.43(हेक्टेयर)	1.43
42	55	निजी	बारानी-3	0.65(हेक्टेयर)	0.65
43	56	सरकारी	गै.मु. खाल	0.5(हेक्टेयर)	0.5
44	57	सरकारी	बंजर	0.19(हेक्टेयर)	0.19
45	62	निजी	बारानी-3	0.26(हेक्टेयर)	0.26
46	63	निजी	बारानी-3	0.24(हेक्टेयर)	0.24
47	63/639	निजी	बारानी-3	0.27(हेक्टेयर)	0.27
48	64	निजी	बारानी-3	0.35(हेक्टेयर)	0.35
49	65	निजी	बारानी-3	0.5(हेक्टेयर)	0.5

50	68	निजी	बारानी-3	0.56(हेक्टेयर)	0.56
51	69	निजी	बारानी-3	1.34(हेक्टेयर)	1.34
52	694/178	निजी	नहरी-2	2.4(हेक्टेयर)	2.4
53	70	निजी	बारानी-3	1.23(हेक्टेयर)	1.23
54	71	निजी	बारानी-3	0.4(हेक्टेयर)	0.4
55	73	निजी	बारानी-3	1.23(हेक्टेयर)	1.23
56	80	सरकारी	गै.मु. नाला	0.54(हेक्टेयर)	0.54
57	81	सरकारी	बंजर	0.27(हेक्टेयर)	0.27
58	82	निजी	बारानी-3	1.74(हेक्टेयर)	1.74
59	83	निजी	बारानी-3	2.62(हेक्टेयर)	2.62
60	92	निजी	बारानी-2	1.43(हेक्टेयर)	1.43
61	93	निजी	बारानी-3	1.54(हेक्टेयर)	1.54
62	94	निजी	बारानी-3	3.03(हेक्टेयर)	3.03
63	97	निजी	बारानी-2	1.37(हेक्टेयर)	1.37
64	97/622	सरकारी	बारानी-2	0.25(हेक्टेयर)	0.25
65	98	निजी	बारानी-2	2.35(हेक्टेयर)	2.35
66	99	सरकारी	बंजर	0.49(हेक्टेयर)	0.49
गांव का नाम: महाराना					
1	239	निजी	नहरी-1	5.7(हेक्टेयर)	5.7
2	241	निजी	नहरी-1	1.62(हेक्टेयर)	1.62
3	264	निजी	नहरी-1	1.62(हेक्टेयर)	1.62
4	265	निजी	नहरी-1	0.79(हेक्टेयर)	0.79
5	265/573	निजी	नहरी-1	0.47(हेक्टेयर)	0.47
6	266	निजी	नहरी-1	5.75(हेक्टेयर)	5.75
7	271	सरकारी	गै.मु. नाला	1.86(हेक्टेयर)	1.86
8	276	निजी	नहरी-1	1.74(हेक्टेयर)	1.74
9	278	निजी	नहरी-1	1(हेक्टेयर)	1
10	279	निजी	नहरी-1	1.34(हेक्टेयर)	1.34
11	280	निजी	नहरी-1	1.53(हेक्टेयर)	1.53
12	286	सरकारी	गै.मु. नाला	1(हेक्टेयर)	1
13	288	निजी	नहरी-1	1(हेक्टेयर)	1
14	289	निजी	नहरी-1	0.99(हेक्टेयर)	0.99
15	290	निजी	नहरी-1	0.8(हेक्टेयर)	0.8

16	291	निजी	नहरी-1	0.38(हेक्टेयर)	0.38
17	292	निजी	नहरी-1	0.62(हेक्टेयर)	0.62
18	299	निजी	नहरी-1	1.5(हेक्टेयर)	1.5
19	300	निजी	नहरी-1	1.2(हेक्टेयर)	1.2
20	300/576	निजी	नहरी-1	1.79(हेक्टेयर)	1.79
21	301	निजी	नहरी-1	1.12(हेक्टेयर)	1.12
22	304	सरकारी	गै.मु. नाला	1.99(हेक्टेयर)	1.99
23	312	निजी	नहरी-1	0.6(हेक्टेयर)	0.6
24	313	निजी	नहरी-1	1.33(हेक्टेयर)	1.33
25	314	निजी	नहरी-1	5.12(हेक्टेयर)	5.12
26	321	निजी	नहरी-1	0.74(हेक्टेयर)	0.74
27	322	निजी	नहरी-1	0.63(हेक्टेयर)	0.63
28	323	निजी	नहरी-1	0.66(हेक्टेयर)	0.66
29	355	सरकारी	गै.मु. नहर	8.65(हेक्टेयर)	8.65
30	359	निजी	नहरी-1	0.48(हेक्टेयर)	0.48
31	360	निजी	नहरी-1	0.18(हेक्टेयर)	0.18
32	361	निजी	नहरी-1	0.35(हेक्टेयर)	0.35
33	362	निजी	नहरी-1	0.2(हेक्टेयर)	0.2
34	363	निजी	नहरी-1	1.1(हेक्टेयर)	1.1
गांव का नाम: मण्डावरा					
1	1042	सरकारी	गै.मु. नहर	7.89(हेक्टेयर)	7.89
2	1043	निजी	नहरी प्रथम	1.15(हेक्टेयर)	1.15
3	1044	निजी	नहरी प्रथम	0.47(हेक्टेयर)	0.47
4	1047	निजी	नहरी प्रथम	1.54(हेक्टेयर)	1.54
5	1048	निजी	नहरी प्रथम	3.02(हेक्टेयर)	3.02
6	1066	निजी	नहरी प्रथम	1.34(हेक्टेयर)	1.34
7	1067	निजी	नहरी प्रथम	0.72(हेक्टेयर)	0.72
8	1068	निजी	नहरी प्रथम	1.68(हेक्टेयर)	1.68
9	1069	निजी	नहरी प्रथम	3.4(हेक्टेयर)	3.4
10	1070	सरकारी	गै.मु. नाला	1.17(हेक्टेयर)	1.17
11	1071	निजी	नहरी प्रथम	1.76(हेक्टेयर)	1.76
12	1072	निजी	नहरी प्रथम	0.59(हेक्टेयर)	0.59
13	1073	निजी	नहरी प्रथम	0.94(हेक्टेयर)	0.94

14	1074	निजी	नहरी प्रथम	1.3(हेक्टेयर)	1.3
15	1076	निजी	नहरी प्रथम	1.04(हेक्टेयर)	1.04
16	1092	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	1.11(हेक्टेयर)	1.11
17	1094	निजी	नहरी प्रथम	3.27(हेक्टेयर)	3.27
18	1095	निजी	नहरी प्रथम	1.88(हेक्टेयर)	1.88
19	1096	निजी	नहरी प्रथम	1.31(हेक्टेयर)	1.31
20	1097	निजी	नहरी प्रथम	0.66(हेक्टेयर)	0.66
21	1105	सरकारी	गै.मु. नहर	4.99(हेक्टेयर)	4.99
22	1163	निजी	नहरी प्रथम	0.8(हेक्टेयर)	0.8
23	1194	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	1.25(हेक्टेयर)	1.25
24	1207	निजी	नहरी प्रथम	0.53(हेक्टेयर)	0.53
25	1208	निजी	नहरी प्रथम	0.89(हेक्टेयर)	0.89
26	1209	निजी	नहरी प्रथम	1.67(हेक्टेयर)	1.67
27	1210	निजी	नहरी प्रथम	1.22(हेक्टेयर)	1.22
28	1211	निजी	नहरी प्रथम	0.17(हेक्टेयर)	0.17
29	1212	निजी	नहरी प्रथम	1.16(हेक्टेयर)	1.16
30	1213	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	0.77(हेक्टेयर)	0.77
31	1215	निजी	नहरी प्रथम	3.28(हेक्टेयर)	3.28
32	751	निजी	नहरी प्रथम	2.61(हेक्टेयर)	2.61
33	752	निजी	नहरी प्रथम	0.34(हेक्टेयर)	0.34
34	753	निजी	नहरी प्रथम	1.87(हेक्टेयर)	1.87
35	754	निजी	नहरी प्रथम	3.24(हेक्टेयर)	3.24
36	757	निजी	नहरी प्रथम	1.17(हेक्टेयर)	1.17
37	758	निजी	नहरी प्रथम	1.73(हेक्टेयर)	1.73
38	761	निजी	नहरी प्रथम	1.46(हेक्टेयर)	1.46
39	762	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	1.3(हेक्टेयर)	1.3
40	764	निजी	नहरी प्रथम	0.77(हेक्टेयर)	0.77
41	767	निजी	नहरी प्रथम	0.85(हेक्टेयर)	0.85
42	768	निजी	नहरी प्रथम	0.85(हेक्टेयर)	0.85
43	769	निजी	नहरी प्रथम	0.51(हेक्टेयर)	0.51
44	770	निजी	नहरी प्रथम	2.17(हेक्टेयर)	2.17
45	771	सरकारी	गै.मु. नाला	0.69(हेक्टेयर)	0.69
46	772	निजी	नहरी प्रथम	2.09(हेक्टेयर)	2.09

47	772/2262	निजी	नहरी प्रथम	0.7(हेक्टेयर)	0.7
48	773	निजी	नहरी प्रथम	2.01(हेक्टेयर)	2.01
49	777	निजी	नहरी प्रथम	2.03(हेक्टेयर)	2.03
50	778	निजी	नहरी प्रथम	1.07(हेक्टेयर)	1.07
51	780	निजी	नहरी प्रथम	1.54(हेक्टेयर)	1.54
52	782	निजी	नहरी प्रथम	0.88(हेक्टेयर)	0.88
53	783	निजी	नहरी प्रथम	1.27(हेक्टेयर)	1.27
54	784	सरकारी	गै.मु. नाला	0.61(हेक्टेयर)	0.61
55	792	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	4.85(हेक्टेयर)	4.85
56	793	सरकारी	गै.मु. ड्रेन	1.19(हेक्टेयर)	1.19
57	843	सरकारी(सार्वजनिक कार्य विभाग)	गै.मु. सड़क	9.19(हेक्टेयर)	9.19
58	853	निजी	नहरी प्रथम	0.5(हेक्टेयर)	0.5
59	855	निजी	नहरी प्रथम	1.54(हेक्टेयर)	1.54
60	856	निजी	नहरी प्रथम	0.43(हेक्टेयर)	0.43
61	857	निजी	नहरी प्रथम	0.35(हेक्टेयर)	0.35
62	858	निजी	नहरी प्रथम	0.55(हेक्टेयर)	0.55
63	859	निजी	नहरी प्रथम	0.97(हेक्टेयर)	0.97
64	860	निजी	नहरी प्रथम	0.7(हेक्टेयर)	0.7
65	861	निजी	नहरी प्रथम	1.57(हेक्टेयर)	1.57
66	862	निजी	नहरी प्रथम	1.63(हेक्टेयर)	1.63
67	885	निजी	नहरी प्रथम	4.34(हेक्टेयर)	4.34
गांव का नाम: मण्डोला					
1	174	निजी	माल प्रथम	1.08(हेक्टेयर)	1.08
2	174/584	निजी	माल प्रथम	1.08(हेक्टेयर)	1.08
3	175	निजी	माल प्रथम	1.37(हेक्टेयर)	1.37
4	176	निजी	माल प्रथम	2.14(हेक्टेयर)	2.14
5	177	निजी	माल प्रथम	3.57(हेक्टेयर)	3.57
6	178	निजी	माल प्रथम	1.23(हेक्टेयर)	1.23
7	179	निजी	माल प्रथम	0.16(हेक्टेयर)	0.16
8	226	सरकारी	गै.मु. रेल्वे	2.43(हेक्टेयर)	2.43
9	227	सरकारी	गै.मु. रेल्वे	0.67(हेक्टेयर)	0.67
10	228	सरकारी	गै.मु. रेल्वे	2.95(हेक्टेयर)	2.95
11	295	निजी	माल प्रथम	1.29(हेक्टेयर)	1.29

12	296	निजी	माल प्रथम	1.05(हेक्टेयर)	1.05
13	297	निजी	माल प्रथम	0.11(हेक्टेयर)	0.11
14	298	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.14(हेक्टेयर)	0.14
15	299	निजी	माल डोयम	0.09(हेक्टेयर)	0.09
16	392	निजी	माल डोयम	1.51(हेक्टेयर)	1.51
17	393	निजी	माल डोयम	1.86(हेक्टेयर)	1.86
18	395	निजी	माल प्रथम	1.02(हेक्टेयर)	1.02
19	396	निजी	माल डोयम	5.5(हेक्टेयर)	5.5
20	397	निजी	माल डोयम	0.73(हेक्टेयर)	0.73
21	398	निजी	माल डोयम	1.98(हेक्टेयर)	1.98
22	399	निजी	माल द्वितीय	0.86(हेक्टेयर)	0.86
23	400	निजी	माल डोयम	7.22(हेक्टेयर)	7.22
24	423	निजी	माल डोयम	1.54(हेक्टेयर)	1.54
25	424	निजी	माल डोयम	0.24(हेक्टेयर)	0.24
26	425	निजी	माल-2	0.35(हेक्टेयर)	0.35
27	426	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.43(हेक्टेयर)	0.43
28	427	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.64(हेक्टेयर)	0.64
29	428	सरकारी	चरागाह	4.21(हेक्टेयर)	4.21
30	473	निजी	बारानी तृतीय	1.44(हेक्टेयर)	1.44
31	474	निजी	बारानी तृतीय	0.61(हेक्टेयर)	0.61
32	476	निजी	बारानी तृतीय	2.41(हेक्टेयर)	2.41
33	476/549	सरकारी	चरागाह	0.25(हेक्टेयर)	0.25
34	477	निजी	बारानी-3	0.12(हेक्टेयर)	0.12
35	478	निजी	बारानी-3	3.13(हेक्टेयर)	3.13
36	479	सरकारी	चरागाह	0.27(हेक्टेयर)	0.27
37	480	सरकारी	चरागाह	2.5(हेक्टेयर)	2.5
38	481	सरकारी	चरागाह	1.4(हेक्टेयर)	1.4
39	482	सरकारी	गै.मु. नाला	0.39(हेक्टेयर)	0.39
40	484	सरकारी	चरागाह	3.38(हेक्टेयर)	3.38
41	485	सरकारी	चरागाह	5.33(हेक्टेयर)	5.33
42	486	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.4(हेक्टेयर)	0.4
43	492	निजी	माल डोयम	0.97(हेक्टेयर)	0.97

गांव का नाम: रामनगर					
1	146	निजी	नहरी प्रथम	2.11(हेक्टेयर)	2.11
2	147	निजी	नहरी प्रथम	0.59(हेक्टेयर)	0.59
3	148	निजी	नहरी प्रथम	0.17(हेक्टेयर)	0.17
4	148/376	सरकारी	चरागाह	0.14(हेक्टेयर)	0.14
5	149	सरकारी	गै.मु. शमशान	0.06(हेक्टेयर)	0.06
6	150	निजी	नहरी प्रथम	0.48(हेक्टेयर)	0.48
7	151	निजी	नहरी प्रथम	0.44(हेक्टेयर)	0.44
8	171	सरकारी	चरागाह	0.7(हेक्टेयर)	0.7
9	182	निजी	बारानी तृतीय	0.27(हेक्टेयर)	0.27
10	183	सरकारी	चरागाह	0.78(हेक्टेयर)	0.78
11	213	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.66(हेक्टेयर)	0.66
12	246	सरकारी	चरागाह	1.59(हेक्टेयर)	1.59
13	247	निजी	बारानी तृतीय	0.97(हेक्टेयर)	0.97
14	249	सरकारी	चरागाह	0.1(हेक्टेयर)	0.1
15	250	निजी	बारानी तृतीय	0.2(हेक्टेयर)	0.2
16	251	सरकारी	चरागाह	0.31(हेक्टेयर)	0.31
17	253	निजी	बारानी तृतीय	0.92(हेक्टेयर)	0.92
18	254	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.22(हेक्टेयर)	0.22
19	255	सरकारी	चरागाह	1.43(हेक्टेयर)	1.43
20	256	निजी	बारानी तृतीय	2.01(हेक्टेयर)	2.01
21	257	सरकारी	चरागाह	0.66(हेक्टेयर)	0.66
22	258	निजी	बारानी तृतीय	3.1(हेक्टेयर)	3.1
23	259	निजी	नहरी द्वितीय	1.63(हेक्टेयर)	1.63
24	262	सरकारी	चरागाह	0.74(हेक्टेयर)	0.74
25	263	निजी	बारानी तृतीय	0.32(हेक्टेयर)	0.32
26	265	निजी	बारानी तृतीय	1.12(हेक्टेयर)	1.12
27	275	निजी	बारानी तृतीय	0.03(हेक्टेयर)	0.03
28	276	सरकारी	बारानी तृतीय	1.97(हेक्टेयर)	1.97
29	277	सरकारी	बारानी तृतीय	0.02(हेक्टेयर)	0.02
30	278	सरकारी	चरागाह	0.81(हेक्टेयर)	0.81

31	279	सरकारी	चरागाह	0.69(हेक्टेयर)	0.69
32	280	सरकारी	चरागाह	0.56(हेक्टेयर)	0.56
33	281	निजी	बारानी तृतीय	4.17(हेक्टेयर)	4.17
34	281/378	सरकारी	बंजर	0.15(हेक्टेयर)	0.15
कुल				1,023.1700	1,023.1700

[फा. सं. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3a3/3A9]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2018

S.O. 4327(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH148N in the stretch of land from Km 346.5 to Km 450.464 in the district of KOTA in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer, Digod in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH148N in the stretch of land from Km 346.5 to Km 450.464 in the district of KOTA in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN		District: KOTA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Digod					
Village: Bargu					
1	274/459	Government	Maal-2	0.41(Hectare)	0.41
2	370	Private	Maal-2	7.8(Hectare)	7.8
3	371	Private	Maal-2	0.24(Hectare)	0.24
4	372	Private	G.M. Rasta	6.75(Hectare)	6.75

5	373	Private	Maal-2	0.82(Hectare)	0.82
6	374	Private	Maal-2	0.3(Hectare)	0.3
7	81	Private	Maal-2	1.11(Hectare)	1.11
8	82	Private	Maal-2	1.16(Hectare)	1.16
9	83/471	Private	Maal-2	1.86(Hectare)	1.86
10	83/472	Private	Maal-2	1.86(Hectare)	1.86
Village: Bhandra Hera					
1	1337/784	Private	Maal-1	3.1(Hectare)	3.1
2	1338/784	Private	Maal-1	4.51(Hectare)	4.51
3	1387/229	Private	Maal-1	0.08(Hectare)	0.08
4	1407/186	Private	Maal-1	1.65(Hectare)	1.65
5	1432/229	Private	Maal-1	0.22(Hectare)	0.22
6	1452/804	Private	Maal-1	1.16(Hectare)	1.16
7	159	Private	Maal-1	5.11(Hectare)	5.11
8	160	Private	Maal-1	3.53(Hectare)	3.53
9	161	Private	Maal-1	3.9(Hectare)	3.9
10	169	Private	Maal-1	4.36(Hectare)	4.36
11	170	Private	Maal-1	0.04(Hectare)	0.04
12	171	Private	Maal-1	2.12(Hectare)	2.12
13	172	Private	Maal-1	7.39(Hectare)	7.39
14	177	Government	G.M. Rasta	1.08(Hectare)	1.08
15	179	Government	Maal-1	0.73(Hectare)	0.73
16	180	Private	Maal-1	0.18(Hectare)	0.18
17	181	Private	Maal-1	6.7(Hectare)	6.7
18	182	Private	Maal-1	4.18(Hectare)	4.18
19	228	Private	Maal-1	4.06(Hectare)	4.06
20	229	Government	Maal-1	0.08(Hectare)	0.08
21	231	Private	Maal-1	1.78(Hectare)	1.78
22	234	Private	Maal-1	3.35(Hectare)	3.35
23	235	Private	Maal-1	1.1(Hectare)	1.1
24	236	Private	Maal-1	1.13(Hectare)	1.13
25	237	Private	Maal-1	3.76(Hectare)	3.76
26	238	Private	Maal-1	2.72(Hectare)	2.72
27	239	Private	Maal-1	2.02(Hectare)	2.02
28	251	Government	G.M. Rasta	1.26(Hectare)	1.26
29	784	Private	Maal-1	3.1(Hectare)	3.1
30	785	Private	Maal-1	0.69(Hectare)	0.69

31	786	Private	Maal-1	1.36(Hectare)	1.36
32	790	Private	Maal-1	1.75(Hectare)	1.75
33	791	Private	Maal-1	1.56(Hectare)	1.56
34	792	Private	Maal-1	4.93(Hectare)	4.93
35	794	Private	Maal-1	1.24(Hectare)	1.24
36	795	Private	Maal-1	2.34(Hectare)	2.34
37	796	Private	Maal-1	7.15(Hectare)	7.15
38	798	Government	G.M. Sadak	1.91(Hectare)	1.91
39	799/1288	Private	Maal-1	6.77(Hectare)	6.77
40	800	Private	Maal-1	1.2(Hectare)	1.2
41	801	Private	Maal-1	1.07(Hectare)	1.07
42	802	Private	Maal-1	1.07(Hectare)	1.07
43	803	Private	Maal-1	1.05(Hectare)	1.05
44	804	Private	Maal-1	1.03(Hectare)	1.03
45	804/1212	Private	Maal-1	1.16(Hectare)	1.16
46	808	Private	Maal-1	1.85(Hectare)	1.85
47	809	Private	Maal-1	1.85(Hectare)	1.85
48	810	Private	Maal-1	1.07(Hectare)	1.07
49	810/1303	Private	Maal-1	1.07(Hectare)	1.07
Village: Brijpura					
1	134	Private	Barani-1	1.85(Hectare)	1.85
2	180	Private	Maal-2	0.05(Hectare)	0.05
3	27	Private	Barani-2	6.49(Hectare)	6.49
4	28	Private	Barani-2	1.3(Hectare)	1.3
5	28/305	Private	Barani-2	0.25(Hectare)	0.25
6	29	Private	Barani-2	2.77(Hectare)	2.77
7	30	Private	Barani-2	0.08(Hectare)	0.08
8	31	Government	G.M. Tulai	0.14(Hectare)	0.14
9	316/42	Government	Barani-3	0.03(Hectare)	0.03
10	32	Government	G.M. Tulai	0.66(Hectare)	0.66
11	323/168	Private	Barani-1	1.06(Hectare)	1.06
12	325/43	Private	Barani-3	0.88(Hectare)	0.88
13	329/143	Private	Barani-1	0.64(Hectare)	0.64
14	33	Private	Barani-2	0.15(Hectare)	0.15
15	330/286	Private	Barani-1	0.73(Hectare)	0.73
16	331/286	Private	Barani-1	0.73(Hectare)	0.73
17	34	Government	Barani-2	0.09(Hectare)	0.09

18	36	Private	Barani-2	0.43(Hectare)	0.43
19	38	Private	Barani-2	0.06(Hectare)	0.06
20	39	Government	G.M. Tulai	0.02(Hectare)	0.02
21	40	Government	Barani-3	0.27(Hectare)	0.27
22	41	Government	Barani-3	0.87(Hectare)	0.87
23	42	Government	Barani-3	0.64(Hectare)	0.64
24	49	Private	Barani-3	0.56(Hectare)	0.56
25	50	Private	Barani-2	0.28(Hectare)	0.28
Village: Deopura					
1	1076/1168	Private	Maal-1	0.19(Hectare)	0.19
2	1080	Private	Maal-1	4.54(Hectare)	4.54
3	1082	Private	Maal-1	1.73(Hectare)	1.73
4	1083	Private	Maal-1	0.57(Hectare)	0.57
5	1085	Private	Maal-1	1.64(Hectare)	1.64
6	1085/1215	Private	Maal-1	0.34(Hectare)	0.34
7	1086	Private	Maal-1	3.83(Hectare)	3.83
8	1087	Private	Maal-1	3.38(Hectare)	3.38
9	1088	Government	Maal-1	0.23(Hectare)	0.23
10	121	Private	G.M. Nahar	1.13(Hectare)	1.13
11	127	Private	Maal-1	1.45(Hectare)	1.45
12	127/1178	Private	Nahari-1	0.57(Hectare)	0.57
13	127/1179	Government	Nahari-1	1(Hectare)	1
14	128	Private	G.M. Nahar	1.22(Hectare)	1.22
15	132	Private	Maal-1	4.31(Hectare)	4.31
16	133	Private	Maal-1	0.52(Hectare)	0.52
17	569	Private	Maal-2	1.42(Hectare)	1.42
Village: Jhoteli					
1	520	Government	Banjar	3.26(Hectare)	3.26
2	520/673	Private	Barani-3	0.2(Hectare)	0.2
3	521	Government	Barani-3	0.14(Hectare)	0.14
4	522	Private	Barani-3	0.63(Hectare)	0.63
5	523	Private	Barani-3	0.43(Hectare)	0.43
6	524	Private	Nahari-2	1.96(Hectare)	1.96
7	551	Private	Nahari-1	1.75(Hectare)	1.75
8	553	Private	Nahari-1	1.01(Hectare)	1.01
9	554	Private	Nahari-1	1.46(Hectare)	1.46
10	555	Private	Nahari-1	1.8(Hectare)	1.8

11	587	Government	Barani-3	0.11(Hectare)	0.11
12	588	Government	Barani-3	0.06(Hectare)	0.06
13	589	Government	Barani-3	0.05(Hectare)	0.05
14	590	Government	Barani-3	0.04(Hectare)	0.04
15	591	Government	Barani-3	0.05(Hectare)	0.05
16	592	Government	Barani-3	0.11(Hectare)	0.11
17	593	Government	Nahari-1	0.67(Hectare)	0.67
18	594/672	Private	Barani-3	0.32(Hectare)	0.32
Village: Kacholiya					
1	1	Government	G.M. Sadak	0.63(Hectare)	0.63
2	131	Government	G.M. Nahar	5.57(Hectare)	5.57
3	135	Private	Nahari-1	1.84(Hectare)	1.84
4	135/495	Private	Nahari-1	0.05(Hectare)	0.05
5	136	Private	Nahari-1	0.31(Hectare)	0.31
6	138	Private	Nahari-1	1.48(Hectare)	1.48
7	138/545	Private	Nahari-1	3(Hectare)	3
8	153	Private	Nahari-1	1.27(Hectare)	1.27
9	155	Private	Nahari-1	1.66(Hectare)	1.66
10	155/524	Private	Nahari-1	0.19(Hectare)	0.19
11	156	Private	Nahari-2	3.46(Hectare)	3.46
12	156/546	Private	Nahari-2	2.12(Hectare)	2.12
13	156/547	Private	Nahari-2	1.42(Hectare)	1.42
14	157	Private	Maal-1	1.32(Hectare)	1.32
15	157/517	Private	Maal-1	0.15(Hectare)	0.15
16	157/518	Private	Nahari-2	0.13(Hectare)	0.13
17	158	Private	Maal-1	1.37(Hectare)	1.37
18	159	Private	Nahari-1	2.16(Hectare)	2.16
19	214	Private	Nahari-1	1.45(Hectare)	1.45
20	215	Government	Maal-1	0.57(Hectare)	0.57
21	216	Private	Nahari-1	1.03(Hectare)	1.03
22	219	Government	Nahari-1	0.3(Hectare)	0.3
23	220	Private	Nahari-1	7.04(Hectare)	7.04
24	222	Government	G.M. Rasta	0.65(Hectare)	0.65
25	224	Private	Nahari-1	0.57(Hectare)	0.57
26	225	Private	Nahari-1	0.22(Hectare)	0.22
27	226	Private	Nahari-1	0.13(Hectare)	0.13
28	227	Private	Nahari-1	1.84(Hectare)	1.84

29	239	Government	G.M. Nahar	4.11(Hectare)	4.11
30	255	Private	Nahari-1	0.62(Hectare)	0.62
31	256	Private	Nahari-1	0.14(Hectare)	0.14
32	257	Private	Nahari-1	0.17(Hectare)	0.17
33	259	Private	Nahari-1	0.98(Hectare)	0.98
34	261	Private	Nahari-1	0.9(Hectare)	0.9
35	262	Private	Nahari-1	1.08(Hectare)	1.08
36	263	Private	Nahari-1	1.04(Hectare)	1.04
37	264	Private	Nahari-1	2.99(Hectare)	2.99
38	265	Private	Nahari-1	2.92(Hectare)	2.92
39	265/498	Private	Nahari-1	0.33(Hectare)	0.33
40	273	Private	Nahari-1	0.79(Hectare)	0.79
41	39	Government	G.M. Drain	5.22(Hectare)	5.22
42	4	Private	Nahari-2	2.63(Hectare)	2.63
43	40	Private	Nahari-2	0.15(Hectare)	0.15
44	43	Government	G.M. Drain	0.43(Hectare)	0.43
45	5	Government	G.M. Rasta	0.31(Hectare)	0.31
46	5/506	Government	Barani-2	0.08(Hectare)	0.08
47	52	Private	Nahari-1	0.87(Hectare)	0.87
48	53	Private	Nahari-1	0.9(Hectare)	0.9
49	54	Government	Nahari-1	0.63(Hectare)	0.63
50	55	Private	Nahari-1	0.58(Hectare)	0.58
Village: Kalyanpura					
1	100	Private	Nahari-2	0.17(Hectare)	0.17
2	101	Private	Nahari-2	0.07(Hectare)	0.07
3	102	Private	Nahari-2	0.07(Hectare)	0.07
4	103	Private	Nahari-2	0.11(Hectare)	0.11
5	104	Private	Nahari-2	0.05(Hectare)	0.05
6	105	Private	Nahari-2	0.22(Hectare)	0.22
7	106	Private	Nahari-2	0.13(Hectare)	0.13
8	107	Private	Nahari-2	0.12(Hectare)	0.12
9	108	Private	Nahari-2	0.03(Hectare)	0.03
10	109	Government	G.M. Drain	0.43(Hectare)	0.43
11	110	Private	Nahari-2	0.24(Hectare)	0.24
12	112	Private	Nahari-2	1.88(Hectare)	1.88
13	143	Private	Nahari-2	1.85(Hectare)	1.85
14	147	Private	Nahari-2	0.53(Hectare)	0.53

15	148	Private	Nahari-2	0.51(Hectare)	0.51
16	149	Private	Nahari-2	0.53(Hectare)	0.53
17	150	Private	Nahari-2	0.83(Hectare)	0.83
18	151	Government	G.M. Drain	1.1(Hectare)	1.1
19	200	Private	Nahari-1	1.52(Hectare)	1.52
20	201	Private	Nahari-1	1.55(Hectare)	1.55
21	202	Government	G.M. Drain	0.96(Hectare)	0.96
22	203	Private	Nahari-1	3.19(Hectare)	3.19
23	36	Private	Barani-2	1.87(Hectare)	1.87
24	37	Private	Barani-2	0.89(Hectare)	0.89
25	40	Government	G.M. Rasta	0.12(Hectare)	0.12
26	41	Government	G.M. Rasta	0.03(Hectare)	0.03
27	42	Government	G.M. Rasta	0.2(Hectare)	0.2
28	43	Private	Maal-2	1.21(Hectare)	1.21
29	44	Private	Maal-2	0.9(Hectare)	0.9
30	52	Government	G.M. Rasta	0.06(Hectare)	0.06
31	53	Private	Barani-2	0.47(Hectare)	0.47
32	54	Private	Barani-2	0.78(Hectare)	0.78
33	55	Private	Maal-1	3.56(Hectare)	3.56
34	57	Private	Barani-2	0.82(Hectare)	0.82
35	58	Private	Barani-2	1.9(Hectare)	1.9
36	59	Private	Barani-2	0.77(Hectare)	0.77
37	65	Private	Maal-1	4.66(Hectare)	4.66
38	66	Private	Maal-1	2.45(Hectare)	2.45
39	67	Private	Maal-1	4(Hectare)	4
40	671	Government	G.M. Nahar	6(Hectare)	6
41	672	Private	Barani-1	1.85(Hectare)	1.85
42	674	Private	Barani-1	0.52(Hectare)	0.52
43	675	Private	Barani-1	1(Hectare)	1
44	676	Private	Maal-2	2.33(Hectare)	2.33
45	677	Private	Barani-1	0.7(Hectare)	0.7
46	678	Private	Barani-1	3.45(Hectare)	3.45
47	679	Private	Barani-1	0.77(Hectare)	0.77
48	680	Government	G.M. Nahar	6.79(Hectare)	6.79
49	698	Government	G.M. Rasta	0.73(Hectare)	0.73
50	699	Government	G.M. Rasta	0.64(Hectare)	0.64
51	700	Government	G.M. Tulai	0.07(Hectare)	0.07

52	701	Government	G.M. Tulai	0.74(Hectare)	0.74
53	702	Government	G.M. Tulai	0.21(Hectare)	0.21
54	710	Private	Maal-2	4.96(Hectare)	4.96
55	711	Private	Barani-1	0.39(Hectare)	0.39
56	712	Private	Barani-1	1.27(Hectare)	1.27
57	713	Private	Barani-1	1.05(Hectare)	1.05
58	714	Private	Barani-1	1.3(Hectare)	1.3
59	715	Private	Barani-1	0.61(Hectare)	0.61
60	716	Private	Barani-1	0.62(Hectare)	0.62
61	717	Private	Barani-1	1.02(Hectare)	1.02
62	721	Private	Maal-2	2.23(Hectare)	2.23
63	734	Private	Maal-1	3.73(Hectare)	3.73
64	735	Private	Maal-1	2.97(Hectare)	2.97
65	736	Private	Maal-1	1.9(Hectare)	1.9
66	738	Private	Maal-1	6.41(Hectare)	6.41
67	74	Private	Maal-1	6.7(Hectare)	6.7
68	75	Private	Maal-1	3.55(Hectare)	3.55
69	76	Private	Maal-1	1.75(Hectare)	1.75
70	80	Private	Maal-1	2.47(Hectare)	2.47
71	81	Private	Maal-1	2.16(Hectare)	2.16
72	82	Private	Maal-1	1.42(Hectare)	1.42
73	83	Private	Maal-1	2.56(Hectare)	2.56
74	84	Private	Maal-1	2.95(Hectare)	2.95
75	91	Private	Maal-1	4.8(Hectare)	4.8
76	92	Private	Maal-1	0.42(Hectare)	0.42
77	93	Private	Maal-1	1.3(Hectare)	1.3
78	94	Private	Maal-1	0.87(Hectare)	0.87
79	95	Private	Maal-1	0.95(Hectare)	0.95
80	96	Government	G.M. Nahar	6.49(Hectare)	6.49
81	97	Private	Nahari-2	0.75(Hectare)	0.75
82	98	Private	Nahari-2	0.03(Hectare)	0.03
83	99	Private	Nahari-2	0.1(Hectare)	0.1
Village: Kanwarpura					
1	104	Government	G.M. Drain	1.33(Hectare)	1.33
2	105	Private	Nahari-2	1.42(Hectare)	1.42
3	105/638	Private	G.M. Chah	0.01(Hectare)	0.01
4	106	Private	Nahari-2	1.29(Hectare)	1.29

5	108	Private	Nahari-2	1.64(Hectare)	1.64
6	109	Private	Nahari-2	0.61(Hectare)	0.61
7	126	Government	G.M. Drain	2.02(Hectare)	2.02
8	226	Private	Nahari-1	2.39(Hectare)	2.39
9	227	Private	Nahari-1	1.76(Hectare)	1.76
10	228	Private	Nahari-1	2.45(Hectare)	2.45
11	229	Private	Nahari-1	0.83(Hectare)	0.83
12	230	Private	Nahari-1	0.8(Hectare)	0.8
13	231	Government	G.M. Drain	2.03(Hectare)	2.03
14	236	Private	Nahari-1	0.44(Hectare)	0.44
15	237	Private	Nahari-1	1.18(Hectare)	1.18
16	238	Private	Nahari-1	0.32(Hectare)	0.32
17	239	Private	Nahari-1	1.57(Hectare)	1.57
18	240	Government	G.M. Rasta	0.26(Hectare)	0.26
19	241	Private	Nahari-1	0.89(Hectare)	0.89
20	242	Private	Nahari-1	0.12(Hectare)	0.12
21	243	Private	Nahari-1	0.18(Hectare)	0.18
22	244	Private	Nahari-1	1(Hectare)	1
23	247	Private	Nahari-1	0.7(Hectare)	0.7
24	259	Government	G.M. Drain	1.98(Hectare)	1.98
25	269	Government	G.M. Rasta	0.1(Hectare)	0.1
26	270	Government	G.M. Drain	0.08(Hectare)	0.08
27	271	Private	Nahari-1	0.55(Hectare)	0.55
28	272	Private	Nahari-1	0.32(Hectare)	0.32
29	273	Private	Nahari-1	0.26(Hectare)	0.26
30	375	Government	G.M. Nahar	3.95(Hectare)	3.95
31	382	Private	Nahari-1	1.72(Hectare)	1.72
32	383	Private	Nahari-1	1.89(Hectare)	1.89
33	384	Private	Nahari-1	0.53(Hectare)	0.53
34	385	Private	Nahari-1	0.41(Hectare)	0.41
35	386	Private	Nahari-1	0.81(Hectare)	0.81
36	387	Private	Nahari-1	0.45(Hectare)	0.45
37	389	Private	Nahari-1	0.46(Hectare)	0.46
38	390	Private	Nahari-1	1.15(Hectare)	1.15
39	402	Private	Nahari-1	0.86(Hectare)	0.86
40	409	Private	Nahari-1	1.19(Hectare)	1.19
41	410	Private	Nahari-1	1.06(Hectare)	1.06

42	411	Private	G.M. Drain	0.78(Hectare)	0.78
43	413	Private	Nahari-1	1.75(Hectare)	1.75
44	414	Private	Nahari-1	0.96(Hectare)	0.96
45	414/630	Private	Nahari-1	0.49(Hectare)	0.49
46	415	Private	Nahari-1	0.7(Hectare)	0.7
47	416	Private	Nahari-1	0.91(Hectare)	0.91
48	417	Private	Nahari-1	1.5(Hectare)	1.5
49	418	Private	Nahari-1	0.75(Hectare)	0.75
50	419	Government	Nahari-1	0.18(Hectare)	0.18
51	420	Private	Nahari-1	0.75(Hectare)	0.75
52	429	Government	G.M. Drain	2.55(Hectare)	2.55
53	444	Government	G.M. Drain	1.7(Hectare)	1.7
54	453	Government	G.M. Nahar	2.94(Hectare)	2.94
55	454	Private	Maal-1	0.84(Hectare)	0.84
56	456	Private	Maal-1	2.36(Hectare)	2.36
57	457	Private	Nahari-1	2.05(Hectare)	2.05
58	458	Private	Nahari-1	0.51(Hectare)	0.51
59	459	Private	Nahari-1	0.38(Hectare)	0.38
60	460	Private	Nahari-1	0.04(Hectare)	0.04
61	461	Private	Nahari-1	1.81(Hectare)	1.81
62	470	Private	G.M. Drain	1.9(Hectare)	1.9
63	478	Private	Nahari-1	2.6(Hectare)	2.6
64	479	Private	Nahari-1	1.61(Hectare)	1.61
65	480	Private	Nahari-1	0.78(Hectare)	0.78
66	480/639	Government	Nahari-1	0.26(Hectare)	0.26
67	499	Private	G.M. Drain	2.67(Hectare)	2.67
68	508	Private	Nahari-1	0.89(Hectare)	0.89
69	509	Private	Nahari-1	0.89(Hectare)	0.89
70	510	Private	Nahari-1	0.93(Hectare)	0.93
71	520	Private	Nahari-1	0.73(Hectare)	0.73
72	521	Private	Nahari-1	1.7(Hectare)	1.7
73	522	Private	Nahari-1	0.55(Hectare)	0.55
74	523	Private	Nahari-1	0.49(Hectare)	0.49
75	524	Government	Nahari-1	0.01(Hectare)	0.01
76	525	Government	G.M. Drain	0.72(Hectare)	0.72
77	526	Private	Nahari-1	3.47(Hectare)	3.47
78	527	Private	Nahari-1	0.54(Hectare)	0.54

79	528	Private	Nahari-1	1.28(Hectare)	1.28
80	534	Government	G.M. Drain	1.71(Hectare)	1.71
81	545	Private	Nahari-1	2.6(Hectare)	2.6
82	546	Private	Nahari-1	0.72(Hectare)	0.72
83	552	Government	G.M. Drain	1.1(Hectare)	1.1
84	555	Private	Nahari-1	1.38(Hectare)	1.38
85	556	Private	Nahari-1	1.47(Hectare)	1.47
86	557	Private	Nahari-1	0.62(Hectare)	0.62
87	558	Private	Nahari-1	0.81(Hectare)	0.81
88	559	Private	Nahari-1	0.8(Hectare)	0.8
89	565	Government	G.M. Nahar	1.6(Hectare)	1.6
90	567	Private	Nahari-1	1.38(Hectare)	1.38
91	568	Private	Nahari-1	0.73(Hectare)	0.73
92	571	Private	Nahari-1	0.05(Hectare)	0.05
93	572	Government	Nahari-1	0.3(Hectare)	0.3
94	573	Private	Nahari-1	1.08(Hectare)	1.08
95	574	Government	Nahari-1	0.86(Hectare)	0.86
96	58/632	Government	Maal-1	0.3(Hectare)	0.3
97	67	Government	G.M. Drain	0.26(Hectare)	0.26
98	69	Private	Nahari-2	2.75(Hectare)	2.75
99	70	Private	Nahari-2	0.61(Hectare)	0.61
100	89	Private	G.M. Drain	3.99(Hectare)	3.99
101	90	Private	Nahari-2	0.07(Hectare)	0.07
102	91	Private	Nahari-2	0.21(Hectare)	0.21
103	92	Private	Nahari-2	0.18(Hectare)	0.18
104	93	Private	Nahari-2	0.43(Hectare)	0.43
105	94	Private	Nahari-2	1.5(Hectare)	1.5
106	95	Government	G.M. Drain	0.31(Hectare)	0.31
107	96	Government	Nahari-2	0.35(Hectare)	0.35
108	97	Private	Nahari-2	0.54(Hectare)	0.54
109	98	Private	Nahari-2	1.04(Hectare)	1.04
110	99	Government	G.M. Drain	0.14(Hectare)	0.14
Village: Karadia					
1	12	Private	Barani Soyam	0.57(Hectare)	0.57
2	13	Private	Barani Soyam	0.63(Hectare)	0.63
3	14	Private	Barani Soyam	5.32(Hectare)	5.32
4	143	Government	G.M. Sadak	1.56(Hectare)	1.56

5	144	Government	G.M. Sadak	1.84(Hectare)	1.84
6	145	Government	G.M. Sadak	0.48(Hectare)	0.48
7	157	Private	Barani Soyam	0.04(Hectare)	0.04
8	170	Private	G.M. Chah	0.05(Hectare)	0.05
9	171	Private	Barani Soyam	6.9(Hectare)	6.9
10	171/601	Private	Barani Soyam	0.1(Hectare)	0.1
11	171/609	Private	Barani Soyam	0.4(Hectare)	0.4
12	171/625	Private	Barani Soyam	0.1(Hectare)	0.1
13	172/1	Private	Barani Soyam	0.38(Hectare)	0.38
14	172/2	Private	Barani Soyam	0.37(Hectare)	0.37
15	173	Private	Barani Soyam	0.39(Hectare)	0.39
16	174	Private	Barani Soyam	0.02(Hectare)	0.02
17	175	Private	Banjar	0.05(Hectare)	0.05
18	176	Private	Barani-3	0.66(Hectare)	0.66
19	177	Private	Barani Soyam	0.07(Hectare)	0.07
20	178	Private	Barani Soyam	0.66(Hectare)	0.66
21	179	Private	Barani Soyam	0.17(Hectare)	0.17
22	179/583	Government	Barani Soyam	0.1(Hectare)	0.1
23	180	Private	Barani Soyam	0.5(Hectare)	0.5
24	181	Private	Barani Soyam	1.03(Hectare)	1.03
25	181/1	Private	Barani Soyam	0.93(Hectare)	0.93
26	182	Government	G.M. Nali	0.66(Hectare)	0.66
27	183	Private	Barani Soyam	0.1(Hectare)	0.1
28	184	Private	Barani Soyam	0.58(Hectare)	0.58
29	185	Private	Barani Soyam	3.3(Hectare)	3.3
30	186	Private	Barani Soyam	1.56(Hectare)	1.56
31	186/598	Private	Barani Soyam	0.32(Hectare)	0.32
32	187	Private	Barani Soyam	0.08(Hectare)	0.08
33	188	Private	Barani Soyam	0.22(Hectare)	0.22
34	189	Private	Barani Soyam	1.5(Hectare)	1.5
35	19	Private	Barani Soyam	1.11(Hectare)	1.11
36	190	Private	Barani Soyam	2.05(Hectare)	2.05
37	191	Private	Barani Soyam	0.87(Hectare)	0.87
38	192	Private	Barani Soyam	0.33(Hectare)	0.33
39	193	Private	Barani Soyam	1.89(Hectare)	1.89
40	193/573	Private	Barani Soyam	0.04(Hectare)	0.04
41	197	Private	Barani Soyam	1.46(Hectare)	1.46

42	197/1	Private	Barani Soyam	1.46(Hectare)	1.46
43	197/2	Private	Barani Soyam	1.46(Hectare)	1.46
44	20	Private	Barani Soyam	0.71(Hectare)	0.71
45	21	Private	Barani Soyam	1.31(Hectare)	1.31
46	22	Private	Barani Soyam	0.18(Hectare)	0.18
47	23	Private	Barani Soyam	0.11(Hectare)	0.11
48	24	Private	Barani Soyam	1.42(Hectare)	1.42
49	25	Private	Barani Soyam	0.06(Hectare)	0.06
50	25/582	Government	Barani-2	0.24(Hectare)	0.24
51	26	Private	Barani Soyam	0.19(Hectare)	0.19
52	27	Private	Barani Soyam	0.08(Hectare)	0.08
53	28	Private	Barani Soyam	1.94(Hectare)	1.94
54	30	Private	Barani Soyam	0.68(Hectare)	0.68
55	31	Private	Barani Soyam	2.95(Hectare)	2.95
56	31/597	Private	Barani Soyam	0.25(Hectare)	0.25
57	320	Private	Barani Soyam	0.02(Hectare)	0.02
58	36	Private	Barani Soyam	0.94(Hectare)	0.94
59	44	Government	G.M. Rasta	1.08(Hectare)	1.08
60	48	Government	G.M. Shamshan	0.1(Hectare)	0.1
61	49	Government	G.M. Tulai	1.36(Hectare)	1.36
62	50	Private	Barani Soyam	0.6(Hectare)	0.6
63	51	Private	Barani Soyam	2.08(Hectare)	2.08
64	52	Private	Barani Soyam	0.47(Hectare)	0.47
65	53	Private	Barani Soyam	4.01(Hectare)	4.01
66	54	Private	Barani Soyam	0.92(Hectare)	0.92
67	55	Private	Barani Soyam	0.93(Hectare)	0.93
68	61	Private	Barani Soyam	2.74(Hectare)	2.74
69	63	Private	Barani Soyam	2.41(Hectare)	2.41
70	631/65	Private	Barani-3	0.11(Hectare)	0.11
71	635/181	Private	G.M. Chah	0.25(Hectare)	0.25
72	635/67	Private	Barani-3	2.19(Hectare)	2.19
73	636/72	Private	Barani-3	0.78(Hectare)	0.78
74	639/176	Private	Barani-3	0.81(Hectare)	0.81
75	64	Private	Barani Soyam	3.36(Hectare)	3.36
76	65	Private	Barani Soyam	0.54(Hectare)	0.54
77	65/1	Private	Barani Soyam	0.61(Hectare)	0.61
78	65/2	Private	Barani Soyam	0.44(Hectare)	0.44

79	65/3	Government	G.M. Sadak	0.04(Hectare)	0.04
80	65/4	Government	G.M. Sadak	0.04(Hectare)	0.04
81	65/5	Government	G.M. Sadak	0.03(Hectare)	0.03
82	652/181	Private	Barani Soyam	0.06(Hectare)	0.06
83	654/65	Government	G.M. Sadak	0.04(Hectare)	0.04
84	655/65	Private	Industrial	0.33(Hectare)	0.33
85	66	Private	Barani Soyam	1.92(Hectare)	1.92
86	663/67	Private	G.M. Abadi	0.25(Hectare)	0.25
87	665/54	Private	Barani Soyam	1.68(Hectare)	1.68
88	666/54	Private	Barani Soyam	1.68(Hectare)	1.68
89	67	Private	Barani Soyam	1.93(Hectare)	1.93
90	68	Private	Barani Soyam	0.38(Hectare)	0.38
91	69	Private	Barani Soyam	0.49(Hectare)	0.49
92	70	Private	Barani Soyam	1.04(Hectare)	1.04
93	71	Private	Barani Soyam	0.84(Hectare)	0.84
94	72	Private	G.M. Aabadi/Barani-3	0.77(Hectare)	0.77
95	73	Private	Barani Soyam	0.09(Hectare)	0.09
96	74	Government	G.M. Tulai	0.67(Hectare)	0.67
Village: Kherli Khushk					
1	1	Government	G.M. Nadi	7.57(Hectare)	7.57
2	10	Private	Barani-3	0.99(Hectare)	0.99
3	11	Private	Barani-3	0.74(Hectare)	0.74
4	12	Private	Barani-3	0.75(Hectare)	0.75
5	13	Private	Barani-3	0.43(Hectare)	0.43
6	16	Private	Barani-1	1.43(Hectare)	1.43
7	17	Private	Barani-1	1.02(Hectare)	1.02
8	18	Government	G.M. Nala	0.41(Hectare)	0.41
9	181	Government	G.M. Nala	1.63(Hectare)	1.63
10	2	Private	Tir	1.04(Hectare)	1.04
11	28	Private	Barani-2	1.03(Hectare)	1.03
12	29	Private	Barani-3	0.53(Hectare)	0.53
13	3	Government	G.M. Nala	0.2(Hectare)	0.2
14	30	Government	G.M. Nala	1.97(Hectare)	1.97
15	31	Private	Barani-3	2.06(Hectare)	2.06
16	32	Private	Barani-2	1.52(Hectare)	1.52
17	4	Private	Barani-1	1.67(Hectare)	1.67
18	5	Private	Barani-1	0.65(Hectare)	0.65

19	6	Private	Barani-1	0.93(Hectare)	0.93
20	7	Private	Barani-1	1.19(Hectare)	1.19
21	8	Private	Barani-1	0.38(Hectare)	0.38
22	9	Private	Barani-2	0.01(Hectare)	0.01
Village: Kunethiya					
1	345	Private	Barani-3	1.78(Hectare)	1.78
2	346	Private	Barani-3	1.63(Hectare)	1.63
3	347	Private	Barani-3	1.5(Hectare)	1.5
4	348	Private	Barani-3	0.23(Hectare)	0.23
5	349	Private	Barani-3	0.96(Hectare)	0.96
6	351	Government	Barani-3	1.26(Hectare)	1.26
7	352	Private	Barani-3	0.65(Hectare)	0.65
8	353	Private	Barani-3	1.01(Hectare)	1.01
9	355	Private	Barani-3	1.5(Hectare)	1.5
10	356	Private	Barani-3	0.69(Hectare)	0.69
11	357	Private	Barani-3	1.99(Hectare)	1.99
12	358	Government	G.M. Rasta	0.97(Hectare)	0.97
13	360	Government	Banjar	0.37(Hectare)	0.37
14	361	Government	Banjar	0.38(Hectare)	0.38
Village: Lakh Saneer					
1	100	Government	Barani-3	0.3(Hectare)	0.3
2	101	Government	Banjar	0.9(Hectare)	0.9
3	106	Government	G.M. Behad	1.85(Hectare)	1.85
4	107	Private	Barani-3	0.45(Hectare)	0.45
5	108	Private	Barani-3	1.85(Hectare)	1.85
6	110	Government	G.M. Behad	4.02(Hectare)	4.02
7	118	Government	G.M. Behad	3.75(Hectare)	3.75
8	156/664	Private	Barani-3	0.3(Hectare)	0.3
9	162	Government	G.M. Nala	1.45(Hectare)	1.45
10	163	Private	Barani-2	1.22(Hectare)	1.22
11	164	Private	Barani-3	0.06(Hectare)	0.06
12	165	Private	Barani-3	1.25(Hectare)	1.25
13	166	Private	Barani-3	1.57(Hectare)	1.57
14	167	Government	Barani-3	0.09(Hectare)	0.09
15	168	Private	Barani-3	0.85(Hectare)	0.85
16	168/627	Government	Barani-3	0.2(Hectare)	0.2
17	169	Government	Barani-3	0.33(Hectare)	0.33

18	170	Private	Barani-3	2.07(Hectare)	2.07
19	171	Government	G.M. Nala	0.36(Hectare)	0.36
20	172	Private	Barani-3	0.3(Hectare)	0.3
21	173	Private	Barani-3	0.72(Hectare)	0.72
22	175	Private	Barani-3	0.19(Hectare)	0.19
23	176	Government	G.M. Behad	18.09(Hectare)	18.09
24	177	Private	Barani-3	3.84(Hectare)	3.84
25	178	Private	Barani-3	3.13(Hectare)	3.13
26	179	Private	Nahari-2	0.07(Hectare)	0.07
27	180	Private	Nahari-1	1.25(Hectare)	1.25
28	182	Government	Nahari-1	2.62(Hectare)	2.62
29	183	Private	Nahari-2	1.54(Hectare)	1.54
30	184	Private	Nahari-1	0.87(Hectare)	0.87
31	185	Government	Barani-3	3.98(Hectare)	3.98
32	186	Private	Barani-3	1.2(Hectare)	1.2
33	186/616	Government	Banjar	0.45(Hectare)	0.45
34	187	Government	Banjar	0.07(Hectare)	0.07
35	188	Private	Barani-3	0.47(Hectare)	0.47
36	189	Government	Barani-3	3.16(Hectare)	3.16
37	193	Private	Nahari-1	0.74(Hectare)	0.74
38	194	Private	Nahari-1	1.05(Hectare)	1.05
39	52	Government	G.M. Khal	1.06(Hectare)	1.06
40	53	Private	Barani-3	0.27(Hectare)	0.27
41	54	Government	G.M. Rasta	1.43(Hectare)	1.43
42	55	Private	Barani-3	0.65(Hectare)	0.65
43	56	Government	G.M. Khal	0.5(Hectare)	0.5
44	57	Government	Banjar	0.19(Hectare)	0.19
45	62	Private	Barani-3	0.26(Hectare)	0.26
46	63	Private	Barani-3	0.24(Hectare)	0.24
47	63/639	Private	Barani-3	0.27(Hectare)	0.27
48	64	Private	Barani-3	0.35(Hectare)	0.35
49	65	Private	Barani-3	0.5(Hectare)	0.5
50	68	Private	Barani-3	0.56(Hectare)	0.56
51	69	Private	Barani-3	1.34(Hectare)	1.34
52	694/178	Private	Nahari-2	2.4(Hectare)	2.4
53	70	Private	Barani-3	1.23(Hectare)	1.23
54	71	Private	Barani-3	0.4(Hectare)	0.4

55	73	Private	Barani-3	1.23(Hectare)	1.23
56	80	Government	G.M. Nala	0.54(Hectare)	0.54
57	81	Government	Banjar	0.27(Hectare)	0.27
58	82	Private	Barani-3	1.74(Hectare)	1.74
59	83	Private	Barani-3	2.62(Hectare)	2.62
60	92	Private	Barani-2	1.43(Hectare)	1.43
61	93	Private	Barani-3	1.54(Hectare)	1.54
62	94	Private	Barani-3	3.03(Hectare)	3.03
63	97	Private	Barani-2	1.37(Hectare)	1.37
64	97/622	Government	Barani-2	0.25(Hectare)	0.25
65	98	Private	Barani-2	2.35(Hectare)	2.35
66	99	Government	Banjar	0.49(Hectare)	0.49
Village: Maharana					
1	239	Private	Nahari-1	5.7(Hectare)	5.7
2	241	Private	Nahari-1	1.62(Hectare)	1.62
3	264	Private	Nahari-1	1.62(Hectare)	1.62
4	265	Private	Nahari-1	0.79(Hectare)	0.79
5	265/573	Private	Nahari-1	0.47(Hectare)	0.47
6	266	Private	Nahari-1	5.75(Hectare)	5.75
7	271	Government	G.M. Drain	1.86(Hectare)	1.86
8	276	Private	Nahari-1	1.74(Hectare)	1.74
9	278	Private	Nahari-1	1(Hectare)	1
10	279	Private	Nahari-1	1.34(Hectare)	1.34
11	280	Private	Nahari-1	1.53(Hectare)	1.53
12	286	Government	G.M. Drain	1(Hectare)	1
13	288	Private	Nahari-1	1(Hectare)	1
14	289	Private	Nahari-1	0.99(Hectare)	0.99
15	290	Private	Nahari-1	0.8(Hectare)	0.8
16	291	Private	Nahari-1	0.38(Hectare)	0.38
17	292	Private	Nahari-1	0.62(Hectare)	0.62
18	299	Private	Nahari-1	1.5(Hectare)	1.5
19	300	Private	Nahari-1	1.2(Hectare)	1.2
20	300/576	Private	Nahari-1	1.79(Hectare)	1.79
21	301	Private	Nahari-1	1.12(Hectare)	1.12
22	304	Government	G.M. Drain	1.99(Hectare)	1.99
23	312	Private	Nahari-1	0.6(Hectare)	0.6
24	313	Private	Nahari-1	1.33(Hectare)	1.33

25	314	Private	Nahari-1	5.12(Hectare)	5.12
26	321	Private	Nahari-1	0.74(Hectare)	0.74
27	322	Private	Nahari-1	0.63(Hectare)	0.63
28	323	Private	Nahari-1	0.66(Hectare)	0.66
29	355	Government	G.M. Nahar	8.65(Hectare)	8.65
30	359	Private	Nahari-1	0.48(Hectare)	0.48
31	360	Private	Nahari-1	0.18(Hectare)	0.18
32	361	Private	Nahari-1	0.35(Hectare)	0.35
33	362	Private	Nahari-1	0.2(Hectare)	0.2
34	363	Private	Nahari-1	1.1(Hectare)	1.1
Village: Mandawara					
1	1042	Government	G.M. Nahar	7.89(Hectare)	7.89
2	1043	Private	Nahari-1	1.15(Hectare)	1.15
3	1044	Private	Nahari-1	0.47(Hectare)	0.47
4	1047	Private	Nahari-1	1.54(Hectare)	1.54
5	1048	Private	Nahari-1	3.02(Hectare)	3.02
6	1066	Private	Nahari-1	1.34(Hectare)	1.34
7	1067	Private	Nahari-1	0.72(Hectare)	0.72
8	1068	Private	Nahari-1	1.68(Hectare)	1.68
9	1069	Private	Nahari-1	3.4(Hectare)	3.4
10	1070	Government	G.M. Drain	1.17(Hectare)	1.17
11	1071	Private	Nahari-1	1.76(Hectare)	1.76
12	1072	Private	Nahari-1	0.59(Hectare)	0.59
13	1073	Private	Nahari-1	0.94(Hectare)	0.94
14	1074	Private	Nahari-1	1.3(Hectare)	1.3
15	1076	Private	Nahari-1	1.04(Hectare)	1.04
16	1092	Government	G.M. Drain	1.11(Hectare)	1.11
17	1094	Private	Nahari-1	3.27(Hectare)	3.27
18	1095	Private	Nahari-1	1.88(Hectare)	1.88
19	1096	Private	Nahari-1	1.31(Hectare)	1.31
20	1097	Private	Nahari-1	0.66(Hectare)	0.66
21	1105	Government	G.M. Nahar	4.99(Hectare)	4.99
22	1163	Private	Nahari-1	0.8(Hectare)	0.8
23	1194	Government	G.M. Drain	1.25(Hectare)	1.25
24	1207	Private	Nahari-1	0.53(Hectare)	0.53
25	1208	Private	Nahari-1	0.89(Hectare)	0.89
26	1209	Private	Nahari-1	1.67(Hectare)	1.67

27	1210	Private	Nahari-1	1.22(Hectare)	1.22
28	1211	Private	Nahari-1	0.17(Hectare)	0.17
29	1212	Private	Nahari-1	1.16(Hectare)	1.16
30	1213	Government	G.M. Drain	0.77(Hectare)	0.77
31	1215	Private	Nahari-1	3.28(Hectare)	3.28
32	751	Private	Nahari-1	2.61(Hectare)	2.61
33	752	Private	Nahari-1	0.34(Hectare)	0.34
34	753	Private	Nahari-1	1.87(Hectare)	1.87
35	754	Private	Nahari-1	3.24(Hectare)	3.24
36	757	Private	Nahari-1	1.17(Hectare)	1.17
37	758	Private	Nahari-1	1.73(Hectare)	1.73
38	761	Private	Nahari-1	1.46(Hectare)	1.46
39	762	Government	G.M. Drain	1.3(Hectare)	1.3
40	764	Private	Nahari-1	0.77(Hectare)	0.77
41	767	Private	Nahari-1	0.85(Hectare)	0.85
42	768	Private	Nahari-1	0.85(Hectare)	0.85
43	769	Private	Nahari-1	0.51(Hectare)	0.51
44	770	Private	Nahari-1	2.17(Hectare)	2.17
45	771	Government	G.M. Drain	0.69(Hectare)	0.69
46	772	Private	Nahari-1	2.09(Hectare)	2.09
47	772/2262	Private	Nahari-1	0.7(Hectare)	0.7
48	773	Private	Nahari-1	2.01(Hectare)	2.01
49	777	Private	Nahari-1	2.03(Hectare)	2.03
50	778	Private	Nahari-1	1.07(Hectare)	1.07
51	780	Private	Nahari-1	1.54(Hectare)	1.54
52	782	Private	Nahari-1	0.88(Hectare)	0.88
53	783	Private	Nahari-1	1.27(Hectare)	1.27
54	784	Government	G.M. Drain	0.61(Hectare)	0.61
55	792	Government	G.M. Drain	4.85(Hectare)	4.85
56	793	Government	G.M. Drain	1.19(Hectare)	1.19
57	843	Government(P.W.D)	G.M. Sadak	9.19(Hectare)	9.19
58	853	Private	Nahari-1	0.5(Hectare)	0.5
59	855	Private	Nahari-1	1.54(Hectare)	1.54
60	856	Private	Nahari-1	0.43(Hectare)	0.43
61	857	Private	Nahari-1	0.35(Hectare)	0.35
62	858	Private	Nahari-1	0.55(Hectare)	0.55
63	859	Private	Nahari-1	0.97(Hectare)	0.97

64	860	Private	Nahari-1	0.7(Hectare)	0.7
65	861	Private	Nahari-1	1.57(Hectare)	1.57
66	862	Private	Nahari-1	1.63(Hectare)	1.63
67	885	Private	Nahari-1	4.34(Hectare)	4.34
Village: Mandola					
1	174	Private	Maal-1	1.08(Hectare)	1.08
2	174/584	Private	Maal-1	1.08(Hectare)	1.08
3	175	Private	Maal-1	1.37(Hectare)	1.37
4	176	Private	Maal-1	2.14(Hectare)	2.14
5	177	Private	Maal-1	3.57(Hectare)	3.57
6	178	Private	Maal-1	1.23(Hectare)	1.23
7	179	Private	Maal-1	0.16(Hectare)	0.16
8	226	Government	G.M. Railway	2.43(Hectare)	2.43
9	227	Government	G.M. Railway	0.67(Hectare)	0.67
10	228	Government	G.M. Railway	2.95(Hectare)	2.95
11	295	Private	Maal-1	1.29(Hectare)	1.29
12	296	Private	Maal-1	1.05(Hectare)	1.05
13	297	Private	Maal-1	0.11(Hectare)	0.11
14	298	Government	G.M. Rasta	0.14(Hectare)	0.14
15	299	Private	Maal Doyam	0.09(Hectare)	0.09
16	392	Private	Maal Doyam	1.51(Hectare)	1.51
17	393	Private	Maal Doyam	1.86(Hectare)	1.86
18	395	Private	Maal-1	1.02(Hectare)	1.02
19	396	Private	Maal Doyam	5.5(Hectare)	5.5
20	397	Private	Maal Doyam	0.73(Hectare)	0.73
21	398	Private	Maal Doyam	1.98(Hectare)	1.98
22	399	Private	Maal-2	0.86(Hectare)	0.86
23	400	Private	Maal Doyam	7.22(Hectare)	7.22
24	423	Private	Maal Doyam	1.54(Hectare)	1.54
25	424	Private	Maal Doyam	0.24(Hectare)	0.24
26	425	Private	Maal-2	0.35(Hectare)	0.35
27	426	Government	G.M. Rasta	0.43(Hectare)	0.43
28	427	Government	G.M. Rasta	0.64(Hectare)	0.64
29	428	Government	Charagah	4.21(Hectare)	4.21
30	473	Private	Barani-3	1.44(Hectare)	1.44
31	474	Private	Barani-3	0.61(Hectare)	0.61
32	476	Private	Barani-3	2.41(Hectare)	2.41

33	476/549	Government	Charagah	0.25(Hectare)	0.25
34	477	Private	Barani-3	0.12(Hectare)	0.12
35	478	Private	Barani-3	3.13(Hectare)	3.13
36	479	Government	Charagah	0.27(Hectare)	0.27
37	480	Government	Charagah	2.5(Hectare)	2.5
38	481	Government	Charagah	1.4(Hectare)	1.4
39	482	Government	G.M. Nala	0.39(Hectare)	0.39
40	484	Government	Charagah	3.38(Hectare)	3.38
41	485	Government	Charagah	5.33(Hectare)	5.33
42	486	Government	G.M. Rasta	0.4(Hectare)	0.4
43	492	Private	Maal Doyam	0.97(Hectare)	0.97
Village: Ramnagar					
1	146	Private	Nahari-1	2.11(Hectare)	2.11
2	147	Private	Nahari-1	0.59(Hectare)	0.59
3	148	Private	Nahari-1	0.17(Hectare)	0.17
4	148/376	Government	Charagah	0.14(Hectare)	0.14
5	149	Government	G.M. Shamshan	0.06(Hectare)	0.06
6	150	Private	Nahari-1	0.48(Hectare)	0.48
7	151	Private	Nahari-1	0.44(Hectare)	0.44
8	171	Government	Charagah	0.7(Hectare)	0.7
9	182	Private	Barani-3	0.27(Hectare)	0.27
10	183	Government	Charagah	0.78(Hectare)	0.78
11	213	Government	G.M. Rasta	0.66(Hectare)	0.66
12	246	Government	Charagah	1.59(Hectare)	1.59
13	247	Private	Barani-3	0.97(Hectare)	0.97
14	249	Government	Charagah	0.1(Hectare)	0.1
15	250	Private	Barani-3	0.2(Hectare)	0.2
16	251	Government	Charagah	0.31(Hectare)	0.31
17	253	Private	Barani-3	0.92(Hectare)	0.92
18	254	Government	G.M. Rasta	0.22(Hectare)	0.22
19	255	Government	Charagah	1.43(Hectare)	1.43
20	256	Private	Barani-3	2.01(Hectare)	2.01
21	257	Government	Charagah	0.66(Hectare)	0.66
22	258	Private	Barani-3	3.1(Hectare)	3.1
23	259	Private	Nahari-2	1.63(Hectare)	1.63
24	262	Government	Charagah	0.74(Hectare)	0.74
25	263	Private	Barani-3	0.32(Hectare)	0.32

26	265	Private	Barani-3	1.12(Hectare)	1.12
27	275	Private	Barani-3	0.03(Hectare)	0.03
28	276	Government	Barani-3	1.97(Hectare)	1.97
29	277	Government	Barani-3	0.02(Hectare)	0.02
30	278	Government	Charagah	0.81(Hectare)	0.81
31	279	Government	Charagah	0.69(Hectare)	0.69
32	280	Government	Charagah	0.56(Hectare)	0.56
33	281	Private	Barani-3	4.17(Hectare)	4.17
34	281/378	Government	Banjar	0.15(Hectare)	0.15
Total				1,023.1700	1,023.1700

[F. No. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3a3/3A9]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.